



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6], नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11—फरवरी 17, 2006 (माघ 22, 1927)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11—FEBRUARY 17, 2006 (MAGHA 22, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

## संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 1 सितम्बर 2005

सं. ए-32014/2/2004-प्रशा.-3--राष्ट्रपति, के.स.से. संवर्ग के  
निम्नलिखित सहायकों को तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई  
गई अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो,  
अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	से	तक
	(सर्वश्री)		
1.	वी. के. जैन	5.8.2005 (अप.)	अगले आदेशों तक
2.	महाबीर शंकर	31.8.2005	31.12.2005

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ पदोन्नति  
निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी:--

- (i) तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में है और  
उन्हें ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित  
नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा  
अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई  
अधिकार नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ व्यवस्था अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता कोट  
तथा/या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई) के माध्यम  
से नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक बनी रहेगी। इस स्थिति में  
जबकि तदर्थ नियुक्त अधिकारी इन दोनों श्रेणियों में से किसी के द्वारा भी  
नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें नियमित  
अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर  
दिया जाएगा।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. ए. 12025(ii)/1/2003-प्रशा. 3--वर्ष, 2003 के लिए सम्मिलित  
सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 के आधार पर अनुभाग अधिकारी  
ग्रेड की सूची में शामिल किए जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
दिनांक 14 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/22/2005-सी  
एस-1 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में  
नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा/

के.स.आ.से. संवर्ग के नियमित सहायक/आशुलिपिक को तारीख 14.09.2005 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के उसी सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	रैंक सं.	सेवा जिससे संबंधित है
1.	सुश्री सरिता तनेजा	058	वैयक्तिक सहायक, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा
2.	सुश्री राखी साधु	163	सहायक, केंद्रीय सचिवालय सेवा
3.	श्री राजा कार	171	सहायक, केंद्रीय सचिवालय सेवा

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उपरोक्त व्यक्तियों की नियुक्ति श्री कैलाश चंद्र तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के निर्णय के अध्वधीन होगी।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 18 नवम्बर 2005

सं. पी.-2928-प्रशा. 3--विदेश मंत्रालय (हज कक्ष) के दिनांक 09.11.2005 के पत्र सं. एम (हज) 1183/03/2005 (हज कक्ष) के द्वारा सहायक हज आफिसर, हज 2006 के रूप में अस्थायी प्रतिनियुक्ति सी जी आई, जहाह (साऊदी अरब) के लिए चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, मौ. नसीम खान, डेस्क अधिकारी के.स.से. संवर्ग, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में दिनांक 21.11.2005 (पूर्वा.) से उनको कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है और विदेश मंत्रालय, हज कक्ष, पंचमहल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 को रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया है। वे विदेश मंत्रालय के दिनांक 09.11.2005 के यथोक्त पत्र के पैरा 3 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. पी. 3281/प्रशा. 3--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के के.स. से.सं. के अनुभाग अधिकारी श्री सुधीर नस्वा के अनुरोध पर दिनांक 23.12.2005 के अपराह्न से उनके त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं। श्री नस्वा को दिनांक 23.12.2005 के अपराह्न से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. ए. 32013/5/2004-प्रशा. 2--इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3.10.05 के अनुक्रम में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में श्री जय प्रकाश, वरि. संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी की

नियुक्ति की अवधि अतिरिक्त तीन महीने के लिए अर्थात् दिनांक 30.12.2005 से 29.03.2006 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हों, वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- (गुप ए राजपत्रित) में वरिष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी के रूप में एतद्वारा बढ़ाई जाती है।

श्री जय प्रकाश की वरिष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी के रूप में नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और उन्हें ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा तथा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को ग्रेड में वरिष्ठता के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 2006

सं. ए-4/12/05--प्रवर्तन निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आय कर और पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में, उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से तीन वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर एतद्वारा नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री मनीष	4.07.2005
2.	श्री राम कुमार पाण्डेय	8.07.2005
3.	श्री एम. के. सिन्हा	14.02.2003
4.	श्री पी. सी. सोथवाल	09.06.2005
5.	श्री राकेश कुमार चोपड़ा	02.09.2005 (पूर्वाह्न)

अतुल वर्मा  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-4/12/05--प्रवर्तन निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निम्नलिखित अधीक्षकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के रूप में, उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से तीन वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, एतद्वारा नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री आर. मुथुकुमार	25.7.2005
2.	एस. वेंकटेश	01.7.2005

अतुल वर्मा  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-4/12/05--प्रवर्तन निदेशक, इस निदेशालय के निम्नलिखित प्रवर्तन अधिकारियों को प्रोन्नति पर मुख्य प्रवर्तन अधिकारियों के रूप

में स्थानापन्न करने के लिए उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से अथवा आगामी आदेशों तक, एतद्वारा नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री के. वी. अनंतकृष्णन	11.8.2005
2.	श्री आर. सी. सिंह	11.8.2005
3.	श्री के. वी. वर्गीस	16.8.2005 (पूर्वाह्न)
4.	श्री पी. गणेशन	22.8.2005 (पूर्वाह्न)
5.	श्रीमती जी. एस. चांदनी	18.8.2005 (पूर्वाह्न)

अतुल वर्मा  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-4/12/05--प्रवर्तन निदेशक, इस निदेशालय के निम्नलिखित प्रवर्तन अधिकारियों/अधीक्षकों को प्रोन्नति और तदर्थ आधार पर मुख्य प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में, स्थानापन्न करने के लिए, उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से अथवा आगामी आदेशों तक, एतद्वारा नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री के. मानी	7.11.2005
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह	7.11.2005
3.	श्री बी. किस्तूर चन्द	19.12.2005 (पूर्वाह्न)

अतुल वर्मा  
उप निदेशक (प्रशा.)

#### केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 2006

सं. डीपी/पर्स. 1/2006/0014/3/24/97--राष्ट्रपति ने श्री मसूद अहमद, लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को 30.12.2005 अपराह्न से अगले आदेशों तक, के.अ. ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

शचिन बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. डीपी/पर्स. 1/2006/0016/3/45/2001--श्री सुधीर प्रताप सिंह, भा.पु. सेवा (राजस्थान : 1983), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं, सीआईएसएफ में महानिरीक्षक के रूप में नियुक्ति पर, 07 जनवरी, 2006 पूर्वाह्न से सीआईएसएफ को सौंपी जाती हैं।

शचिन बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स. 1/2005/0017/3/5/99--श्री हरि नाथ मिश्र, भा. पु. सेवा (केरल : 1990), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

की सेवाएं, प्रत्यावर्तन पर 3 जनवरी 2006 अपराह्न से केरल सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

शचिन बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2006

सं. 2/4/06-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सहायक श्री टी. जगन्नाथ राव को निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 30.01.2006 (पूर्वाह्न) से 03.04.2006 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री टी. जगन्नाथ राव की निजी सचिव के पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

मांगे लाल  
विशेष कार्य अधिकारी

#### गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-03, दिनांक 23 जनवरी 2006

सं. ए-17011/47 (आर-91)/2004-प्रशा.-I--इस निदेशालय के श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख), अपनी अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.12.2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

कमलेश डेका  
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

सं. ए-17011/49 (सी.-22)/2004-प्रशा.-II--इस निदेशालय के श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, उपनिदेशक, अपनी अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.12.2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

कमलेश डेका  
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

दिनांक 30 जनवरी 2006

सं. ए-12012/6/स.नि./2005-प्रशा.-II--इस निदेशालय के डॉ. सुरेश विनायक को अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर 8000-13500/- रुपये के वेतनमान में 2 जनवरी, 2006 से अगले आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

कमलेश डेका  
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जनवरी 2006

सं. ओ-दो-3675/06-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर अख्तर अहमद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 5 नवम्बर 2005 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 31 बटा. में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 23 जनवरी 2006

सं. ई-16015/(2)/2/2003/कार्मिक 1/08--राष्ट्रपति, श्री के. एन. त्रिपाठी, कमांडेंट को नियमित पदोन्नति पर के.ओ.सुब में वरिष्ठ कमांडेंट के पद पर 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वह के.ओ.सुब इकाई, कोलकाता एयरपोर्ट में तैनात है, जहां उन्होंने दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 के पूर्वार्ह से वरिष्ठ कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय

महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 25 जनवरी 2006

सं. ई-16013/(1)/एस.पी.एस./2006/कार्मिक-2/313--केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महानिरीक्षक पद में नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री सुधीर प्रताप सिंह, भा.पु.से. (आर.जे. 1983), ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु. 18400-500-22400 के वेतनमान में दिनांक 9 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) को बल मुख्यालय में रिपोर्ट किया तथा दिनांक 10 जनवरी 2006 (अपराह्न) से महानिरीक्षक (उत्तरी सेक्टर), के.ओ.सुब, साकेत, नई दिल्ली के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

ह./- अपठनीय

महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ई-16013/(1)/05/97/कार्मिक-1/360--प्रतिनियुक्ति से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री ए. आर. किन्नी, भा.पु.से. (बी.एच. : 81), ने दिनांक 31 दिसम्बर 2005 (अपराह्न) को महानिरीक्षक (उत्तरी सेक्टर) के.ओ.सुब, साकेत, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है। अधिकारी को दुबई (यू.ए.ई.) का दौरा करने की अनुमति सहित दिनांक 1 जनवरी 2006 से 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

ह./- अपठनीय

महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2006

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-290--इस कार्यालय के श्री छेदी लाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31 जनवरी 2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 20.01.1946 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 20 जुलाई 1966 है।

क. प्रसाद

निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-292--इस कार्यालय के श्री विजेन्द्र सिंह चौहान, निजी सचिव के सी.सी.एस. (पेंशन) के नियम 48-ए के अर्न्तगत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को महानिदेशक लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप वह दिनांक 31 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 12.09.1958 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 29 मार्च 1979 है।

क. प्रसाद

निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-304--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व, श्रीमती आशा रानी भम्बी, निजी सचिव को 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में स्थानापन्न आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में दिनांक 2 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से आगे के आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क. प्रसाद

निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 30 जनवरी 2006

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-309--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 2 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

नाम (सर्व श्री)

1. चमन भंडारी
2. प्रमोद कांत शर्मा
3. दीपक कुमार गुप्ता
4. विवेक कुमार
5. जवाहर लाल

क. प्रसाद

(निदेशक (प्रशासन))

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-310--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 2 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

- नाम (सर्व श्री)
1. संगीता दुआ (श्रीमती)
  2. दिनेश कुमार शर्मा

क. प्रसाद  
निदेशक (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2006

सं. --प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल) को स्वैच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उसके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
01	श्री डी मुरली कृष्ण	व.ले.प.अ.	30.11.2005

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

सं. --प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल) को स्वैच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उसके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
01	श्री एस. वेंकटेश्वर राव-III	व.ले.प.अ.	31.12.2005

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय (वाणिज्य, निर्माण एवं प्राप्ति)  
(सीडब्ल्यू एवं आरए), उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

स्था. आ.सं.-07--इस कार्यालय के का.आ.ग. (वाणिज्य) सं. 62 दिनांक 6 दिसम्बर 2005 द्वारा सूचित मुख्यालय के अनुभागीय कार्यालय आदेश सं. सी.ए.-I/प्रशासन 196 दिनांक 28 दिसम्बर 2005 के अनुसार

में श्री इमानुएल स्वरूप कोरमाटी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) पदोन्नति होने पर लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में वेतनमान रु. 7,500-250-12,500/- पर 28 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से महालेखाकार का कार्यालय (सीडब्ल्यू एवं आरए) उड़ीसा, भुवनेश्वर के वाणिज्य लेखा परीक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण किए हैं।

लेखा परीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावों को प्रभावित किए बिना तथा न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/सि.ए.टि. आदि के अंतिम शर्त पर की गई है।

ह./- अपठनीय  
उप महालेखाकार/प्रशासन

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय  
श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. 5/1/2005-सी.पी.आई--दिसम्बर 2005 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982 = 100) 3 अंक घट कर 550 (पांच सौ पचास) अंक रहा।

आर. के. गुप्ता  
उप निदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 23 जनवरी 2006

सं. सी-16/1800(1)--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' मानचित्रकार डिप्टी जून-I की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार ग्रुप 'बी' (राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500 के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री पी. एल. बाछवान (अनुसूचित जाति)	01.12.2005

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-23/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 7,450-225-11,500 के वेतनमान में उनके

नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री सोहन स्वरूप (अनुसूचित जाति)	01.12.2005
2.	श्री झालकन राम महारा (अनुसूचित जाति)	29.12.2005
	एम. गोपाल राव मेजर जनरल भारत के महासर्वेक्षक	

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 24 जनवरी 2006

संदर्भ : पीडी/11(1)/2005-आर-III/108--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री एस. एस. देवकर, प्रवर श्रेणी लिपिक, को दिनांक 20 जून 2005 (पूर्वाह्न) से 23 दिसम्बर 2005 (अपराह्न) तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमति वी. टी. राजन  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 25 जनवरी 2006

संदर्भ : पीडी/11(2)/2005-आर-III/117--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री राजारामन चंद्रशेखरन, सहायक लेखा अधिकारी, को दिनांक 21.11.2005 (पूर्वाह्न) से 23.12.2005 (अपराह्न) तक रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमति वी. टी. राजन  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/11(2)/2005-आर-III/118--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमति सुगा जयराज मेनन, सहायक लेखाकार, को दिनांक 21.11.2005 (पूर्वाह्न) से 23.12.2005 (अपराह्न) तक रु. 7450-225-11500 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमति वी. टी. राजन  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/15(1)/2001-आर-III/119--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री वी. वासवन, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन), को दिनांक 03.08.2005 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक

रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमति वी. टी. राजन  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/15(1)/2001-आर-III/120--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती उन्नम्मा थामस, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन), को दिनांक 01.08.2005 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमति वी. टी. राजन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 12 जनवरी 2006

संदर्भ : क्रभनि/07019/भर्ती/6468--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने श्री जी. सत्यनारायण, भंडारी, हैदराबाद, क्रभनि, हैदराबाद को भंडार एकक, क्रभनि, एएमडी, नागपुर में दिनांक 29.12.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, रुपए 6500-200-10500 के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंडे  
प्रशासन अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 28 जनवरी 2006

सं. ब्रिट/9/18/2006/01--महामहिम राष्ट्रपतिजी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में कुमारी सुजाता साहा को दिनांक 1 सितम्बर 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रुपए 8,000-275-13,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली  
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/18/2006/02--महामहिम राष्ट्रपतिजी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में कुमारी नीतू ठकराल को दिनांक 1 सितम्बर 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रुपए 8,000-275-13,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली  
मुख्य कार्यकारी

## परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 27 जनवरी 2006

सं. पखनि-4/1/2005-भर्ती/1765--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 01.02.2005 से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी-डी के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड/ वेतनमान	धारित स्थाई पद	पदभार ग्रहण करने की तारीख
01.	श्री एस.के. गरई	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	वैज्ञानिक अधिकारी-डी रु. 10,000-325-15,200/-	युप-ए वैज्ञानिक	01.02.2005

रमेन्द्र मोहन सिन्हा  
निदेशक

## भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 24 जनवरी 2006

सं. भापाबो/भर्ती/2(5)/2006/76--राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 01 सितंबर, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक कॉलम सं. 5 में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में भारी पानी संयंत्रों में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	संकाय	प्रारंभिक वेतन (रु.)	संयंत्र का नाम
	सर्वश्री			
1.	बुरागोनी अनिल कुमार	विद्युत	9,100/-	भापासं. (मनुगुरु)
2.	चितलपति गौतम	रासायनिकी	9,100/-	भापासं. (मनुगुरु)
3.	संतोष कुमार देवांगन	यंत्रिकरण (ई एंड सी)	8,825/-	भापासं. (मनुगुरु)
4.	नितेश परसायी	रासायनिकी	9,100/-	भापासं. (बड़ौदा)
5.	रामानुज परिहार	यांत्रिकी	9,100/-	भापासं. (बड़ौदा)
6.	मयन्क देसाई	यंत्रिकरण	9,100/-	भापासं. (तालचेर)

आर. के सैनी  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. भापाबो/भर्ती/4(16)/2006/77--राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (तालचेर) के श्री अक्षय कुमार साहु, वैज्ञानिक अधिकारी/डी को उसी कार्यालय में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/ई के पद पर दिनांक 01 फरवरी, 2005 से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री साहु ने दिनांक 01 फरवरी, 2005 से धारित वैज्ञानिक अधिकारी/डी के निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. के सैनी  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

## अंतरिक्ष विभाग

सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र शार

श्रीहरिकोट-524124, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. एससीएफ/पीजीए/स्थापना-II/15/05--नियंत्रक, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र शार प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित कर्मचारियों को 29.10.2004 के पूर्वाह्न से अन्यथा आगामी आदेश जारी किये जाने तक, पदोन्नति पर, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोट में, निजी

सहायक-(ख) के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री वी. वीराघवय्या
2. श्री चि. वेंकटरामय्या

वी. प्रसाद  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालयाध्यक्ष  
कृते नियंत्रक

सं. एससीएफ/पीजीए/स्थापना-II/15/05--नियंत्रक, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र शार प्रसन्नतापूर्वक श्री जी. मोहन राव को 25.04.2005 के पूर्वाह्न से अन्यथा आगामी आदेश जारी किये जाने तक, पदोन्नति पर, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा में, परियोजना आशुलिपिक सहायक के पद पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं।

वी. प्रसाद  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालयाध्यक्ष  
कृते नियंत्रक

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जनवरी 2006

सं. ए-32013/4/2005-स्था.1--राष्ट्रपति जी, श्री पी. शॉ, क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा, मुंबई को, पूर्णतः तदर्थ आधार पर पदोन्नति पर, निदेशक विमान सुरक्षा के पद पर रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में दिनांक 17.01.2006 से छः माह की अवधि के लिए या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

चानन राम  
उपनिदेशक, प्रशासन

दिनांक 24 जनवरी 2006

सं. ए-32013/2/2005-स्था.2--राष्ट्रपति महोदय, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय के श्री आर. के. महेश्वरी, उप महानिदेशक (तदर्थ) को उप महानिदेशक के पद पर 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 16.01.2006 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक उप महानिदेशक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

चानन राम  
उपनिदेशक, प्रशासन

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 5 जनवरी 2006

सं. एफ.48 एडी(एटी)2005--श्री के. एन. मुनिराज, कार्यालय अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ, मुंबई, को तदर्थ

आधार पर, अस्थायी क्षमता में, दिनांक-07 दिसम्बर, 2005 पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, रु. 8000-275-13,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ, चण्डीगढ़ में, स्थानापन्न रूप में सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री के. एन. मुनिराज की उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गौंधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.48 एडी(एटी)2005--श्री एन. सी. कचारी, कार्यालय अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकता पीठ, कोलकता, को तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, दिनांक-12 दिसम्बर, 2005 पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, रु. 8000-275-13,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, विशाखापट्टनम पीठ, विशाखापट्टनम में, स्थानापन्न रूप में सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री एन. सी. कचारी की उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गौंधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2005--श्री के. सी. कुट्टी, वरिष्ठ निजी सचिव, आयकर अपीलीय अधिकरण, चैन्नई पीठ, चैन्नई, निर्वतन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 30 नवम्बर, 2005 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

विमल गौंधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2005--श्री पी. रंगाराजू, वरिष्ठ निजी सचिव, आयकर अपीलीय अधिकरण, चैन्नई पीठ, चैन्नई, निर्वतन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

विमल गौंधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.301-एडी(एटी)/2005--श्री के. शनमुगसुन्दरम, आशुलिपिक, पोस्ट मास्टर जनरल, दक्षिण क्षेत्र, मदुराई के कार्यालय में, को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05.01.1994



में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ, मुंबई में, रु. 6500-200-10500/- के वेतनमान में, दिनांक 14.12.2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गौधी  
अध्यक्ष

दिनांक 17 जनवरी 2006

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2005--श्री पी. सी. बद्रीनारायण, कार्यालय अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ को तदर्थ आधार पर, पूर्णतः अस्थायी क्षमता में, दिनांक 05 जनवरी, 2006 अपराह्न से छः माह की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, रु. 8000-275-13,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, गुवाहाटी पीठ, गुवाहाटी (मुख्यालय कोलकाता) में, स्थानापन्न रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गौधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2005--श्री सी. के. सोमाई, मुख्य लिपिक, आयकर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर पीठ, जोधपुर को, तदर्थ आधार पर, पूर्णतः अस्थायी क्षमता में, दिनांक 02 जनवरी, 2006 पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, रु. 8000-275-13,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, रांची पीठ, रांची का मुख्यालय दिल्ली में, स्थानापन्न रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गौधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.301-एडी(एटी)/2005--श्री कन्हैया कुमार, निजी सहायक, ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05-01-1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ,

कोलकाता में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 03-11-2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गौधी  
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरूशी स्टील एण्ड अलायेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 सितम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-42140--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अरूशी स्टील एण्ड अलायेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रेन्डी ट्रोपिकल फूड्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-60754/8446--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ट्रेन्डी ट्रोपिकल फूड्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीर इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-7366/8471--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

उपरान्त मैसर्स वीर इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

उपरान्त मैसर्स डुडेजा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुडगांव इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55375/8484--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुडगांव इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टी सी आर डिजिटल टेक्नोलोजीज लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/05-35382/8876--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टी सी आर डिजिटल टेक्नोलोजीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेस्टिज फाईनान्स एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-7204/8666--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स प्रेस्टिज फाईनान्स एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम्बार्क सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-117236/8886--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एम्बार्क सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डुडेजा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/05-34709/8671--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेन्चुरी रियलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-75346/8881--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

उपरान्त मैसर्स सेन्चुरी रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओंकार टूर एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-40951/8891--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ओंकार टूर एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेस्टिज लाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-106921/9064--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रेस्टिज लाईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिग्सटन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-27496/8896--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बिग्सटन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के मोहन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10551/9067--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के मोहन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसोसियेटेड हाईबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10656/9061--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसोसियेटेड हाईबिल्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्याम पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-10380/9070--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्याम पेपर मिल्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. के. एन. कन्सल्टेन्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-66399/9073--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. के. एन. कन्सल्टेन्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दुर्गा दास संजय कुमार फिनिशिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-129810/9082--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स दुर्गा दास संजय कुमार फिनिशिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राया पावर लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-85020/9076--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राया पावर लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स द ओरियन्टल रेफरीजेशन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-3056/9087--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स द ओरियन्टल रेफरीजेशन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरश टेक्नोक्रेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-93055/9079--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आरश टेक्नोक्रेट प्राईवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोफ्ट ऐक्सेस इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-88019/9090--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोफ्ट ऐक्सेस इन्टरनेशनल

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
स. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ट्रान्सक्रिप्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
स. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एबीसी बूट फैक्टरी लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-92104/9093--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एबीसी बूट फैक्टरी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
स. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मारुति बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-90716/9102--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मारुति बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
स. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनिसन एयर एण्ड सी कारगो प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-76579/9096--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनिसन एयर एण्ड सी कारगो प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
स. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. एन. ए. फाईनान्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-73645/9108--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के. एन. ए. फाईनान्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
स. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नयर सोफ्टवेयर एण्ड ट्रान्सक्रिप्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-107144/9099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नयर सोफ्टवेयर एण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. एन. कैपिटल मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49886/9111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. एन. कैपिटल मैनेजमेन्ट

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रीमेक्स कन्सल्टैन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49950/9123--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रीमेक्स कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कॉम्पोज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49518/9126--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कॉम्पोज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फाल्कन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49797/9129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फाल्कन एक्विजम प्राइवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनजिन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49811/9141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनजिन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐ जीरो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49688/9144--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐं जीरो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच वी टक्कर चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49184/9147--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच वी टक्कर चिट फण्ड

एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. जी. बाबू इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-48551/9159--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी. जी. बाबू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एडवान्ड कम्प्युनिकेशन इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-48418/9161--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडवान्सड कम्प्युनिकेशन इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साक्षी ग्रैनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-48171/9165--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साक्षी प्रेनाईट्स प्राइवेट



लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कम्प्यूटर लिंक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-48188/9168--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कम्प्यूटर लिंक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इशुदित्या इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में। .

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-48437/9171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इशुदित्या इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फार्मान्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू एवेन्यू फार्मिनाल्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-48394/9174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यू एवेन्यु फाईनान्स एण्ड

इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐडवेन्चर एम्परेल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-46126/9177--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडेव्हेनर एम्परेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रमन इलैक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-4888/9180--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रमन इलेक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शालिनी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49861/9183--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शालिनी इम्पैक्स प्राइवेट

एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसेन्ट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-34286/9195--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसेन्ट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पोर्टलाइट कम्प्युनिकेशन ओरगेनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-92744/9198--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्पोर्टलाइट कम्प्युनिकेशन ओरगेनाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरटी एड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-95328/9201--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आरटी एड्स प्राइवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पौ. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरूणा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36614/9213--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरूणा सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनीत चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36950/9216--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विनीत चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमआईएस इन्वेस्टमेंट एण्ड कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36551/9219--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमआईएस इन्वेस्टमेंट एण्ड



एण्ड डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनटीएम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36965/9240--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनटीएम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. सी. लीज़िंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-95566/9251--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. सी. लीज़िंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नार्दन कन्वेयर्स इण्डिया लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-50773/9243--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नार्दन कन्वेयर्स इण्डिया लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालाजी होस्पिटैलिटी सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-45616/9254--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बालाजी होस्पिटैलिटी सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसपीएन इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-103954/9248--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसपीएन इन्जीनियरिंग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्बाट्रोस एक्सप्रेस सर्विसेज़ लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-88024/9257--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अल्बाट्रोस एक्सप्रेस सर्विसेज़

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

उपरान्त मैसर्स गुडमैन ट्रेवल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनगेटे एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36156/9260--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विनगेटे एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐस्ट्रोन लेबोरेट्रीज लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-79001/9274--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐस्ट्रोन लेबोरेट्रीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. डी. गुलशन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36029/9263--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. डी. गुलशन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साकारा कन्सल्टेंट्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36990/9279--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साकारा कन्सल्टेंट्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुडमैन ट्रेवल्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-89960/9269--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धीरज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36715/9282--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स धीरज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लुकमैन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36848/9297--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लुकमैन हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नितबोब इस्टेट्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36996/9300--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निटबोब इस्टेट्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूर्या मिडोव प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005 •

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36397/9303--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सूर्या मिडोव प्राइवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनटीएम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36966/9306--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनटीएम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलाईन पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36370/9380--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलाईन पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परफेक्ट कोइल टैक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36367/9309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परफेक्ट कोइल टैक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मीडिया कन्सल्टेन्सी ब्यूरो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-30850/9321--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मीडिया कन्सल्टेन्सी ब्यूरो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीमेन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36725/9312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रीमेन चिट्स प्राईवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कम्फोर्ट ग्रुप ऑफ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-14170/9329--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के



उपरान्त मैसर्स कम्फोर्ट ग्रुप ऑफ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एग्रोगोल्ड इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-88156/9326--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एग्रोगोल्ड इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अवन्त गोर्ड टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-22526/9342--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अवन्त गोर्ड टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एडीबी इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-21572/9334--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एडीबी इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. के. इन्फोर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-22608/9345--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी. के. इन्फोर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वास्कद एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-49896/9339--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वास्कद एक्सपोर्ट प्राईवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निकिता (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-22864/9348--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निकिता (इण्डिया) प्राईवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कम्पेन्ट चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-22075/9351--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कम्पेन्ट चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऊषा डाईकार्स्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-5103/9360--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऊषा डाईकार्स्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देवीदयाल मैटल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-3403/9354--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स देवीदयाल मैटल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोमानी प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-10740/9363--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सोमानी प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लोब वूलन मिल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-3483/9357--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्लोब वूलन मिल्स (इण्डिया)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उद्योग भारती प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-3492/9368--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उद्योग भारती प्राइवेट

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आजाद चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-3561/9380--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आजाद चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर बी रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-22171/9383--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर बी रोसिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विन्टेज एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55653/9389--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विन्टेज एक्सपोर्ट्स प्राइवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान मीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-53330/9392--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान मीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किरित ऑयल एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-49185/9401--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स किरित ऑयल एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यादव थियेटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55514/9395--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यादव थियेटर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेम इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-36394/9410--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेम इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केयरटेकर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55666/9398--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केयरटेकर सर्विसेज प्राईवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मधूश इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55452/9438--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मधूश इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनग्लो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-55103/9441--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनग्लो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वन्दना डाइस्टफ एण्ड इन्टरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

सं. एल.सी./560(3)/10537/5012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वन्दना डाइस्टफ एण्ड इन्टरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हसमुख ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-7615/9472--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हसमुख ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. क.र./प.ब./आईपीसी/560/एसईएस/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 217 कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	83919	मैसर्स ए. के. टैन प्राइवेट लिमिटेड
2.	84728	मैसर्स ऐकतन फूड एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	48208	मैसर्स आरपीजय विनियोग लिमिटेड
4.	70070	मैसर्स आबाशीज गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
5.	87279	मैसर्स एचीमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
6.	63605	मैसर्स एंड-ऑन-व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	60951	मैसर्स एड्स कॉन्फ्रेड प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कास्मेटिक्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-5673/9475--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कास्मेटिक्स एण्ड केमिकल्स

1	2	3	1	2	3
8.	41258	मैसर्स अग्रवाल ऐन्केम प्राईवेट लिमिटेड	38.	89678	मैसर्स ब्रेभो एविएशन प्राईवेट लिमिटेड
9.	25319	मैसर्स अग्रम्प प्राईवेट लिमिटेड	39.	52285	मैसर्स बक्सस कम्प्यूटर सिस्टेम्स एण्ड सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	86695	मैसर्स आकाश इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	40.	27598	मैसर्स सीआईसी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	5417	मैसर्स अक्षय जमीन्दारी प्राईवेट लिमिटेड	41.	63413	मैसर्स कलकत्ता टेनेरीज डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
12.	31830	मैसर्स अलाता चक्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड	42.	32120	मैसर्स चक्रवर्ती एण्ड कम्पनी (फर्टिलाइजर्स) प्राईवेट लिमिटेड
13.	99063	मैसर्स एलायेन्स टावर्स प्राईवेट लिमिटेड	43.	25821	मैसर्स चाकुलिया स्टील एण्ड मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	79968	मैसर्स अमेटेक गेजेज प्राईवेट लिमिटेड	44.	26022	मैसर्स चातुस्कोन प्राईवेट लिमिटेड
15.	29711	मैसर्स अन्कासिगो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	45.	60488	मैसर्स चोखानी फाईनान्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	60638	मैसर्स अन्शु वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड	46.	26310	मैसर्स चोपड़ा जूट एण्ड गुनीस प्राईवेट लिमिटेड
17.	62615	मैसर्स अनुग टावर प्राईवेट लिमिटेड	47.	74897	मैसर्स सीटीगेट डीलर प्राईवेट लिमिटेड
18.	29236	मैसर्स अनुपम पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	48.	26439	मैसर्स कोलफील्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	30109	मैसर्स एक्जुआ फौना इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	49.	88368	मैसर्स कन्नोइसिसर्स होस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
20.	30608	मैसर्स आराधना फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	50.	74212	मैसर्स कोस्को इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	74319	मैसर्स अटलांटिक वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड	51.	80997	मैसर्स क्रिस्टल लैम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	26832	मैसर्स ऑटो स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	57226	मैसर्स डी. पी. इन्टरलोजिक सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	56204	मैसर्स बाबा महादेव प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	53.	28804	मैसर्स डकालिया ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
24.	42599	मैसर्स बालाजी ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	41171	मैसर्स डाटा टेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
25.	96976	मैसर्स बंगबिहार हाऊसिंग प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड	55.	93080	मैसर्स दीप-शिखा गैस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
26.	13754	मैसर्स बनिक एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	56.	22025	मैसर्स डिनालहाटी (एग्रीकल्चर) प्राईवेट लिमिटेड
27.	77682	मैसर्स बंसल सेनिटरी वेयर प्राईवेट लिमिटेड	57.	49043	मैसर्स ड्रीम्स विंग दूर एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	66881	मैसर्स बंशीधर डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड	58.	73215	मैसर्स ड्रीमएयर फैन्स लिमिटेड
29.	22026	मैसर्स बंसरा (एग्रीकल्चर) प्राईवेट लिमिटेड	59.	47827	मैसर्स ड्रिहाइफेन ऐयर एण्ड गैस सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	34103	मैसर्स बारू प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	60.	36327	मैसर्स ईस्टेल इम्पैक्स लिमिटेड
31.	67658	मैसर्स बियेभर्स सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	46342	मैसर्स ईस्टर्न एस्फाल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	39623	मैसर्स बंगाल ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड			
33.	28478	मैसर्स भागलपुर प्लावर मिल प्राईवेट लिमिटेड			
34.	32881	मैसर्स भास्कर इलेक्ट्रा प्राईवेट लिमिटेड			
35.	53325	मैसर्स भोजनगर वाला रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			
36.	57203	मैसर्स ब्लेन्डेड कॉमर्शियल एण्ड फाईनान्शियल प्राईवेट लिमिटेड			
37.	16955	मैसर्स बॉम्बे फोटो स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
62.	79132	मैसर्स ईस्टर्न कोम्पुटेल प्राईवेट लिमिटेड
63.	8963	मैसर्स ईस्टर्न ड्रग कम्पनी लिमिटेड
64.	85583	मैसर्स ईस्टर्न स्पीडलिंक प्राईवेट लिमिटेड
65.	96655	मैसर्स एल्पीन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
66.	22714	मैसर्स इन्जीनियरिंग इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
67.	22087	मैसर्स एक्सपोर्ट्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
68.	26892	मैसर्स एक्सप्रेस वायररड्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	67810	मैसर्स एक्सोन सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
70.	82872	मैसर्स फेरों प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	24878	मैसर्स फोरेस्ट होटेल प्राईवेट लिमिटेड
72.	77990	मैसर्स फ्रन्टलाइन विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
73.	61370	मैसर्स गांधी विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
74.	24632	मैसर्स गीके इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
75.	24395	मैसर्स गेकेदास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	58708	मैसर्स ग्लोब लुब्रीकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	30671	मैसर्स गुड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
78.	22315	मैसर्स गोपाल चन्द्र पाल एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	22516	मैसर्स गोपाल नगर (एग्रीकल्चर) प्राईवेट लिमिटेड
80.	88166	मैसर्स गृहस्थ प्रोविजन्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	38739	मैसर्स गुलमोहर स्थिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	27054	मैसर्स गुरुप कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
83.	93164	मैसर्स हेल्पेज नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
84.	83772	मैसर्स हर्बीवोरस हस्बैन्ड्री रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
85.	38488	मैसर्स हाईलैण्ड ब्लड स्टॉक प्राईवेट लिमिटेड
86.	28113	मैसर्स हिन्द नेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	36496	मैसर्स हाऊस ऑफ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
88.	28309	मैसर्स इण्डियन कार्बन पेपर (इन्डस्ट्रीज) प्राईवेट लिमिटेड
89.	26117	मैसर्स इन्डोफ्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	51721	मैसर्स इनफेल्ड फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लिमिटेड

1	2	3
91.	70097	मैसर्स इन्कारनेशन एग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
92.	23830	मैसर्स इन्टरनल ट्रान्सपोर्ट मैनुफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	41093	मैसर्स जे. सी. टेनेरीज प्राईवेट लिमिटेड
94.	81703	मैसर्स जनार्दन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	91816	मैसर्स जय गुरु फेब्रीकेटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	20636	मैसर्स जयश्री इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	38042	मैसर्स जुई प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	35372	मैसर्स के. सी. मित्रा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
99.	35206	मैसर्स के. सी. मित्रा (एक्सपोर्ट्स) प्राईवेट लिमिटेड
100.	42971	मैसर्स कमला फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड
101.	26462	मैसर्स कतरास आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
102.	83220	मैसर्स कविता मिनेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	43456	मैसर्स करास्को ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	28438	मैसर्स खारसावन रिफ्रेक्टरीज एण्ड मिनेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	34810	मैसर्स कोहिनूर रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
106.	88283	मैसर्स कुंज ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	75136	मैसर्स लेजर कारपोरेट इन्टेलीजेन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
108.	86958	मैसर्स ले-एम-प्रो इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
109.	26740	मैसर्स लिन्गुआप्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
110.	64402	मैसर्स लाइरीड एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
111.	81032	मैसर्स एम डी सेन्टर इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	85063	मैसर्स एम. एम. ट्रान्सक्राइब प्राईवेट लिमिटेड
113.	38193	मैसर्स मैगना पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	83947	मैसर्स महानदी डीयरिंग्स एण्ड इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
115.	33171	मैसर्स मालसी इलीम्पेक्स इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
116.	74772	मैसर्स ममता ट्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
117.	87854	मैसर्स मनसा प्रसाद गोराई एण्ड एग्री कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	140.	85882	मैसर्स ओरियन इन एण्ड आउट प्राईवेट लिमिटेड
118.	52287	मैसर्स मैन्कॉन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	28789	मैसर्स पी. बेनर्जी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
119.	38074	मैसर्स मनीषा प्लाई इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	142.	91640	मैसर्स पालीमेक्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	18705	मैसर्स मैन्सफिल्ड ऑयल गैस कम्पनी लिमिटेड	143.	84402	मैसर्स पानासोनिक लाइटिंग प्राईवेट लिमिटेड
121.	41296	मैसर्स मैरीटाईम सी फूड प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	144.	85109	मैसर्स पंकज प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	22068	मैसर्स मौरानी (एग्रीकल्चर) प्राईवेट लिमिटेड	145.	69861	मैसर्स परिक्रमा मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
123.	65869	मैसर्स एमसी डोनाल्ड्स फास्ट फूड प्राईवेट लिमिटेड	146.	27805	मैसर्स पॉल्स मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड
124.	91962	मैसर्स मर्लिन फ्लॉवर्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	147.	38942	मैसर्स पवित्र विट निगम प्राईवेट लिमिटेड
125.	55277	मैसर्स माइक्रो एण्ड मैक्रो इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	148.	67916	मैसर्स पी. जी. कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
126.	66443	मैसर्स मिल्कीवे एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	149.	87004	मैसर्स पेलिकन होलिडे इन प्राईवेट लिमिटेड
127.	89669	मैसर्स मिलेनियम इवेन्ट मैनेजर्स प्राईवेट लिमिटेड	150.	31322	मैसर्स परफेक्ट परफॉरेशन प्राईवेट लिमिटेड
128.	84466	मैसर्स मिराकेल्स इन्फर्टीलिटी एण्ड जेनेटिक रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड	151.	64767	मैसर्स पर्स फाईनान्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड
129.	86355	मैसर्स मिथिन्द एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	152.	57232	मैसर्स पेट्रोकोन लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड
130.	88736	मैसर्स मोन्टेसोरी साइबर किड लिमिटेड	153.	34774*	मैसर्स पिफको इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	38588	मैसर्स मुक्ती एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	154.	81844	मैसर्स पायनियर स्कैन प्राईवेट लिमिटेड
132.	47972	मैसर्स एस. सी. राय एण्ड कम्पनी (ज्वेलर्स) प्राईवेट लिमिटेड	155.	85910	मैसर्स पी. एम. डी. इन्टरटेनमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	34527	मैसर्स नन्दीप सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	156.	77163	मैसर्स पोलो कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
134.	71555	मैसर्स नैट कम्युनिकेशन एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	157.	38238	मैसर्स प्रहलाद कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
135.	37634	मैसर्स निधि एलॉयज एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	158.	37657	मैसर्स प्रवीण कॉमर्शियल्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	37300	मैसर्स निर्मल कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	159.	75278	मैसर्स प्रवीन साइन एण्ड डिस्प्ले प्राईवेट लिमिटेड
137.	49983	मैसर्स नु-लुक टावर्स प्राईवेट लिमिटेड	160.	54651	मैसर्स प्रीमियर होइस्ट प्राईवेट लिमिटेड
138.	37234	मैसर्स ओलिम्पस प्रोसेस कंट्रोलर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	161.	73296	मैसर्स प्रो मेडिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	35640	मैसर्स ओमिस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	162.	28645	मैसर्स प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
			163.	36755	मैसर्स राधाकिशन स्टील मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
			164.	24054	मैसर्स रेलवेज एण्ड मिनेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
			165.	63856	मैसर्स राजहंस गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
			166.	36153	मैसर्स रामकनाई इलेक्ट्रो वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
			167.	25212	मैसर्स राने आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3	1	2	3
168.	12582	मैसर्स रिफरिजेशन इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	193.	63005	मैसर्स सुपरसोनिक ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	98915	मैसर्स रोवलैण्ड टी फैक्टोरिंग प्राईवेट लिमिटेड	194.	81247	मैसर्स सुप्रिम फाईनान्स लिमिटेड
170.	30705	मैसर्स एस एंड एम शू प्राईवेट लिमिटेड	195.	74513	मैसर्स सीनिम्से कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	29593	मैसर्स एस.डी.बी. इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	196.	38037	मैसर्स सिस्टेम टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
172.	24108	मैसर्स एस. पी. भट्टाचार्य एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	197.	21963	मैसर्स तंगाबारिया (एग्रीकल्चर) प्राईवेट लिमिटेड
173.	89200	मैसर्स सेफड्राइव कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	198.	67526	मैसर्स तीरेको एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
174.	31562	मैसर्स साइलेण्ट इन्जीनियरिंग एण्ड प्रोसेजिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	199.	99479	मैसर्स टाइगर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
175.	66177	मैसर्स सन्तोषी मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	200.	65029	मैसर्स टिप्स फिस्कल्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	38879	मैसर्स श्री वरदान डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	201.	65672	मैसर्स टिप्स होटेल्स रिसोर्ट्स एण्ड हेल्थ फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	72310	मैसर्स श्रीराम रबड़ प्राईवेट लिमिटेड	202.	67527	मैसर्स ट्रेकरी सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	34264	मैसर्स श्री चारभुजा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	203.	48440	मैसर्स त्रिशूल एपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	37077	मैसर्स सिकोम सर्विस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	204.	37983	मैसर्स टीटीडी पैकेजिंग एण्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड
180.	63295	मैसर्स सिकंदर इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	205.	33024	मैसर्स अल्ट्रामैट प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
181.	34902	मैसर्स सिन्धी मैरिन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	206.	64465	मैसर्स यूनिपैक एयर एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
182.	86626	मैसर्स सोलर प्लेक्सेस रिसर्च लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	207.	54149	मैसर्स यूनाइटेड आर्ट-ओ-बिल्ट कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
183.	60606	मैसर्स सोनाली एण्ड सोनासोली एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	208.	39914	मैसर्स यूनाइटेड एक्सटिंगुशेज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
184.	95672	मैसर्स श्री बेंगाल डिस्टीलेरी प्राईवेट लिमिटेड	209.	29309	मैसर्स उत्कल गैसेज लिमिटेड
185.	22069	मैसर्स श्री कृष्णापुर (एग्रीकल्चर) प्राईवेट लिमिटेड	210.	90596	मैसर्स उर्तन फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	27554	मैसर्स श्री गुरु इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	211.	35839	मैसर्स विसाखा वैली फैब्रिकॉन्स लिमिटेड
187.	31671	मैसर्स स्टैण्डर्ड लुब-केम प्राईवेट लिमिटेड	212.	39283	मैसर्स वाकमैन इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
188.	42031	मैसर्स स्टार एग्रो-इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	213.	69071	मैसर्स वार्टिसला कोम्पोडील प्राईवेट लिमिटेड
189.	73185	मैसर्स सुहाना सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	214.	68887	मैसर्स वाटरलु प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	63683	मैसर्स सनबर्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	215.	41404	मैसर्स वेलट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	32075	मैसर्स सनसैम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	216.	52353	मैसर्स व्हीलगार्ड लुब्रीकेन्ट्स एण्ड स्पेशियेलीटिज प्राईवेट लिमिटेड
192.	29089	मैसर्स सुपर रेफ्रैक्टोरीज प्राईवेट लिमिटेड	217.	33873	मैसर्स यशरंग एण्ड कम्पनी लिमिटेड

टी. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 25 जनवरी 2006

सं. कं. सं/560(3)/एस.सं./2005-2006--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह  
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर  
निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया  
गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर  
दी जाएगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	24915	मैसर्स अल्फा सेंचुरी प्राईवेट लिमिटेड
2.	28931	मैसर्स ब्लेजन सॉफ्टवेयर साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	30739	मैसर्स डेंस सिटी इमेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	26559	मैसर्स नेट्येक साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
5.	25857	मैसर्स एसेस मेडि-रिच प्राईवेट लिमिटेड
6.	34806	मैसर्स जिंदल एल्यूमिनियम एंड स्टील लिमिटेड
7.	29382	मैसर्स एडवांसड कापॉरेंट सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	29381	मैसर्स चाली विले रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
9.	32029	मैसर्स नोएसिल टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
10.	27101	मैसर्स आइ जुम्बा कॉम प्राईवेट लिमिटेड
11.	32019	मैसर्स ऐसिस टेक्नोलॉजिस बिजनेस सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
12.	24920	मैसर्स इएमसी इन्फो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
13.	30688	मैसर्स कीरती इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
14.	31310	मैसर्स एडवेयर नॉलेज सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
15.	31378	मैसर्स पारटेक फाइनेनशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
16.	28747	मैसर्स केपेला इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
17.	28759	मैसर्स रेडस्टोन साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
18.	29437	मैसर्स मेरिन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	31163	मैसर्स एम. बी. रॉक इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
20.	30731	मैसर्स स्प्रिंग विजन सॉफ्टवेयर साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
21.	27506	मैसर्स विसमार्टेपोस प्राईवेट लिमिटेड
22.	26020	मैसर्स हासन ऑटोमोबाइल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
23.	31113	मैसर्स एसपीएड ऐश्वर्या सेल्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
24.	25418	मैसर्स अक्षत कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	26375	मैसर्स नेस्टर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
26.	25566	मैसर्स श्री रामलिंगेश्वर सुगर्स लिमिटेड
27.	25866	मैसर्स अवतार टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
28.	25331	मैसर्स एग्रोवेयर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
29.	25272	मैसर्स एडविनस लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	30628	मैसर्स विधनन् मार्केटिंग एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
31.	24044	मैसर्स हायरमठ हायर पर्चेज एंड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
32.	30379	मैसर्स क्विक इन्फो सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
33.	27429	मैसर्स आई-साफ्ट सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
34.	31726	मैसर्स श्री कृष्णा टूल्स मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	29029	मैसर्स गोपीनाथ रेडियो टैक्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
36.	29543	मैसर्स एम एस आर डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	29849	मैसर्स फिक्सल ब्रह्मा ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	29731	मैसर्स फर्स्ट सिक्वोर कंसलटेन्सी एंड मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	26417	मैसर्स कारीबसवेश्वर सुगर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	24556	मैसर्स जे. एण्ड अपार्टमेंटस् प्राईवेट लिमिटेड
41.	25233	मैसर्स एलसाफ्ट साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
42.	27694	मैसर्स सुजयनेट टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
43.	26509	मैसर्स इन्स्ट्रुमेंट्स एक्सप्लोरर काम प्राईवेट लिमिटेड
44.	32995	मैसर्स एकोना इंटरियर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
45.	25940	मैसर्स जोगीमती विंड पावर प्राईवेट लिमिटेड
46.	25419	मैसर्स पावनगिरी हिलटॉप रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
47.	24424	मैसर्स प्रयोग केमिकल्स एंड कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
48.	29327	मैसर्स डिजिलाइन स्मार्ट कार्ड साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
49.	29238	मैसर्स एलिकसर इन्फोवे प्राईवेट लिमिटेड
50.	28452	मैसर्स डीसीएस साफ्टवेयर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
51.	34971	मैसर्स एबजू कान्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
52.	32499	मैसर्स एवीएस स्पाइस प्राईवेट लिमिटेड
53.	27803	मैसर्स एफआइ वर्ल्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
54.	27358	मैसर्स प्रेसेटएस इन्फोरमेशन सल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
55.	31894	मैसर्स प्रोक्थोर फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	25793	मैसर्स डी. ए. कंसल्टिंग (डीएसीजी) इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
57.	29906	मैसर्स जयराम कार्तिक इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	27857	मैसर्स नोएसिस टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
59.	27775	मैसर्स सिसफार साल्यूशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
60.	25982	मैसर्स अक्षत टैक्स (हुबली) प्राईवेट लिमिटेड
61.	24907	मैसर्स इबिस हेल्थ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	30323	मैसर्स टैक एक्सप्रेस कुरियर्स एंड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
63.	31358	मैसर्स सुदर्शन आप्टीलिंग्स लिमिटेड
64.	26330	मैसर्स धारवाड़ डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
65.	28788	मैसर्स कल्पतरु ब्रोकरेज प्राईवेट लिमिटेड
66.	33486	मैसर्स स्पंदन इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
67.	31531	मैसर्स क्वीकटेक कम्प्युसाल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
68.	26978	मैसर्स ट्रापिकाना क्लब प्राईवेट लिमिटेड
69.	31449	मैसर्स बी. एन. मेडिकल पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
70.	25609	मैसर्स आक्सफोर्ड स्लेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
71.	29047	मैसर्स इंडवे नेट फोर प्राईवेट लिमिटेड
72.	24209	मैसर्स विबाग्योर टेक्स प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड
73.	29975	मैसर्स कलरेंट मल्टीटेक प्राईवेट लिमिटेड
74.	29481	मैसर्स ब्लूविज टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
75.	30267	मैसर्स सुशीर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	29664	मैसर्स चिमेरा बायोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	25277	मैसर्स रोटेक इंजीनियरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
78.	29244	मैसर्स बंगलौर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्राईवेट लिमिटेड
79.	32554	मैसर्स के.के.के.नसन इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
80.	27235	मैसर्स लेस कंसीरजिस सर्विस प्रोवाइडर प्राईवेट लिमिटेड
81.	28152	मैसर्स देसी पावर अनंतपुर प्राईवेट लिमिटेड
82.	27457	मैसर्स सीएस टेक्नोलॉजिस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
83.	30667	मैसर्स एक्सेपशनल साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
84.	25963	मैसर्स स्पीड वे आटो सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
85.	26596	मैसर्स दमदेन इंपोटेक प्राईवेट लिमिटेड
86.	31174	मैसर्स मार्केटिंग टेक्नोलॉजिस एनालिटिक्स एंड साल्यूशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
87.	26542	मैसर्स सफल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
88.	32147	मैसर्स अरब कंसल्टिंग इंजीनियर्स मोहरम बैंक होम प्राईवेट लिमिटेड
89.	30383	मैसर्स एल्विन नेट इंफॉर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	28780	मैसर्स करेन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	32403	मैसर्स गल्वेज फैशन क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
92.	26989	मैसर्स ट्रेवेल्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
93.	24134	मैसर्स वाल स्ट्रीट जर्नल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
94.	24135	मैसर्स एशियन वाल स्ट्रीट जर्नल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
95.	24133	मैसर्स डी. जोन्स एण्ड कम्पनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
96.	28583	मैसर्स होप नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड

संजय कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी पंजीकार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

हैदराबाद-500195, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. आरएपी/एसईएस-2005/560(3)/दिसम्बर-2005--सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के एसईएस-2005 (आसान कलम स्कीम) दिनांक 28.01.2005 के अनुसरण में इस कार्यालय में आवेदन किया है। सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	01-42658	मैसर्स क्रिगर रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
2.	01-42425	मैसर्स स्पीयरहेड नन्दन बायो एक्सट्रेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	01-42816	मैसर्स मस्ना ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	01-42313	मैसर्स धर्मा साई रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	01-42242	मैसर्स इयुरो ऑटोमैस इनेर्जीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	01-42197	मैसर्स राजुला टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
7.	01-44814	मैसर्स दन्दमुडि प्लास्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	01-38117	मैसर्स पेनगुइन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	01-38216	मैसर्स श्री शिर्डी साई पुरावसु बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	01-38301	मैसर्स सैबराबाद क्लब एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	01-38248	मैसर्स यालता टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	01-38225	मैसर्स सिप्रा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	01-38217	मैसर्स श्री कृष्णा मोहना प्रिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	01-38691	मैसर्स लावीना रोड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	01-38631	मैसर्स प्रनावा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	01-38602	मैसर्स इन्ट्रीडियन्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	01-40759	मैसर्स इण्डिया सेरम लिमिटेड
18.	01-40490	मैसर्स स्पदाना ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	01-38624	मैसर्स वेस्ट-टेक ईडु मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
20.	01-38597	मैसर्स ब्रोडलर ब्रीडर प्राईवेट लिमिटेड
21.	01-38592	मैसर्स रोकसी प्लेटिंग टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
22.	01-38524	मैसर्स एनिग्मा एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
23.	01-38578	मैसर्स सीजन्स हेल्थकेयर (फार्मा) लिमिटेड
24.	01-40013	मैसर्स टैपान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	01-40121	मैसर्स सीमेट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	01-40027	मैसर्स ग्रीनलीफ टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
27.	01-37858	मैसर्स सिन्डीकेट फेयर मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
28.	01-37824	मैसर्स विनीत एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
29.	01-37822	मैसर्स नीलम रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	01-37121	मैसर्स एनडब्ल्यू मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	01-40795	मैसर्स गुडि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	01-41935	मैसर्स चारमीनार केबुल विजन प्राईवेट लिमिटेड
33.	01-41725	मैसर्स पिक्सिस मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	01-41634	मैसर्स ग्राफिक्स साफ्टेक एशिया प्राईवेट लिमिटेड
35.	01-38407	मैसर्स नवसिस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	01-39928	मैसर्स महिता एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	01-39706	मैसर्स साई सुधा हरि कम्प्यूटर्स एण्ड कम्प्युनिकेशन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
38.	01-39797	मैसर्स शिवनाग फोटोग्राफ प्राईवेट लिमिटेड
39.	01-39624	मैसर्स कम्फर्ट (हैदराबाद) प्राईवेट लिमिटेड
40.	01-38422	मैसर्स एसएमटी नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
41.	01-38480	मैसर्स सीयस नेट इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
42.	01-38441	मैसर्स विश्वप्रिया प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	01-38424	मैसर्स भवनासि इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	01-41211	मैसर्स सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	01-41296	मैसर्स अगवाल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
46.	01-41439	मैसर्स विस प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	01-39041	मैसर्स ब्लू टच साफ्टवेयर लिमिटेड
48.	01-31831	मैसर्स रुक्मिणी कल्यानि हास्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	01-31607	मैसर्स नियपिट बायोफार्मा प्राईवेट लिमिटेड
50.	01-31319	मैसर्स रस्सेल आई पी एम लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
51.	01-31877	मैसर्स महावाडि मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	01-36113	मैसर्स गोलेम टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
52.	01-31496	मैसर्स केसीआर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	80.	01-36104	मैसर्स कास्ट एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
53.	01-32474	मैसर्स आजाद कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	81.	01-15357	मैसर्स अवलंची एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
54.	01-32413	मैसर्स कोस्टल आन्ध्र एक्स-सर्विसेस सेक्युरिटी फेयर एण्ड टेक्निकल सर्विसेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	82.	01-16714	मैसर्स श्रीमुख इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
55.	01-32414	मैसर्स टनडेम मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	01-16534	मैसर्स स्मीति फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	01-31381	मैसर्स जाग्रा रेसिडेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	84.	01-17573	मैसर्स तेजस्वी क्रेडिट कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
57.	01-39275	मैसर्स सिलिकॉन एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	85.	01-17163	मैसर्स मेगा अक्वा लिमिटेड
58.	01-37050	मैसर्स मंजुनाथा पॉवर जेन प्राईवेट लिमिटेड	86.	01-35684	मैसर्स भवानी वेब-ऑफसेट प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	01-38013	मैसर्स टीए. डीए. इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	87.	01-35518	मैसर्स अनासूया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	01-38062	मैसर्स एम. आर. अक्वा बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड	88.	01-36100	मैसर्स रत्नानिधि होम्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	01-38095	मैसर्स अर्शा टर्बो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	89.	01-36144	मैसर्स टेनफोल्ड टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
62.	01-38097	मैसर्स लोटस अक्वा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	90.	01-35908	मैसर्स सस्या स्यामला बायो-टेक लिमिटेड
63.	01-38102	मैसर्स ब्ल्यू फ्लॉवर डाय कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	91.	01-35663	मैसर्स गायत्री देवी जेनरल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	01-38357	मैसर्स एस.के.एस. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	92.	01-36415	मैसर्स श्री रामाचन्द्रा पेपर मिल्स लिमिटेड
65.	01-38356	मैसर्स वी.एस.एन.आर. चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	93.	01-36399	मैसर्स श्री ललिता साई रिइन्फोर्सड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	01-38324	मैसर्स कोविदा हेल्थ एण्ड हार्जिन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	94.	01-36163	मैसर्स पार्क जियो मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	01-38028	मैसर्स मैसोर नदी टारपलिन्स प्राईवेट लिमिटेड	95.	01-35593	मैसर्स साफ्टकॉम सोल्यूशन्स लिमिटेड
68.	01-31233	मैसर्स श्री लारवेन पालिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	96.	01-23778	मैसर्स आईकोन आर्चैड्स एण्ड एग्रो एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड
69.	01-31224	मैसर्स नेलकोन इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	97.	01-23432	मैसर्स डेक्कन फाईनान्शियल सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड
70.	01-31575	मैसर्स प्रेरना इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	98.	01-3601	मैसर्स नवोदया स्टील एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	01-31341	मैसर्स गोमती मिनरल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	99.	01-7997	मैसर्स भूपति सीमेन्ट्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	01-31752	मैसर्स रत्नम पाइल फाऊन्डेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	100.	01-38565	मैसर्स 2 डेक टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
73.	01-31349	मैसर्स मास्टर इन्टरफेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	101.	01-38354	मैसर्स सी एस बी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	01-35634	मैसर्स इनहाऊस साफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	102.	01-20893	मैसर्स श्री सुभा चन्दन प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	01-35657	मैसर्स आई क्यू इन्फोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	103.	01-25350	मैसर्स एस.आर.वी. सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	01-35525	मैसर्स रिशी टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	104.	01-20081	मैसर्स अशोका डायमण्ड लिमिटेड
77.	01-35653	मैसर्स जुपिटर आई टी कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	105.	01-30336	मैसर्स वेलगापुडि ट्रान्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	01-35377	मैसर्स कृष्ण विनि पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	106.	01-30490	मैसर्स वेलगापुडि मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
107.	01-34569	मैसर्स सेगे एण्ड एसकाल्लोन ऐरोसोल प्राईवेट लिमिटेड
108.	01-31678	मैसर्स रॉ एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
109.	01-35619	मैसर्स सक्काता इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	01-35613	मैसर्स हेच के साफ्टवेयर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
111.	01-35315	मैसर्स टेक्नोस्मार्ट.नेट लिमिटेड
112.	01-38527	मैसर्स पिपेटन्स टेक्नोलोजीज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
113.	01-39948	मैसर्स श्रीकाकुलम डैरि प्राईवेट लिमिटेड
114.	01-46269	मैसर्स कोड ग्रीन नेट वर्क्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
115.	01-42841	मैसर्स पाली विशीयो टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
116.	01-42917	मैसर्स डेक्कन किडनी स्टोन क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
117.	01-3076	मैसर्स सुविमा एडवाइजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
118.	01-16271	मैसर्स श्री वासवि केबल्स एण्ड कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	01-10725	मैसर्स आंध्रा एल्युमिनियम लिमिटेड
120.	01-23584	मैसर्स पानातुला फाईनान्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
121.	01-23642	मैसर्स श्री सुप्राजा मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
122.	01-29570	मैसर्स वसिस्टा कम्युनिकेशन नेट वर्क प्राईवेट लिमिटेड
123.	01-32182	मैसर्स मोनाका इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
124.	01-36885	मैसर्स फ्युटेक केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	01-34238	मैसर्स ऐश्वर्या बॉयोटेक लिमिटेड
126.	01-37870	मैसर्स श्री गौतमी विद्यालय प्राईवेट लिमिटेड
127.	01-36270	मैसर्स वीरलापालेम पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	01-32572	मैसर्स त्रि-शक्ति बिल्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	01-34340	मैसर्स आईमेक साफ्ट लिमिटेड
130.	01-34547	मैसर्स वेलोक्स इन्फोटेक लिमिटेड
131.	01-34127	मैसर्स सुसबा साफ्टेक लिमिटेड (परिवर्तन)

1	2	3
132.	01-34195	मैसर्स सिमसन्स मेगा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
133.	01-34125	मैसर्स यशोदा टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
134.	01-34178	मैसर्स धनवन्तरी हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
135.	01-34110	मैसर्स स्पेस माटर्स कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	01-34180	मैसर्स जेड सिसटम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
137.	01-34267	मैसर्स सुविधा टेकमार्क प्राईवेट लिमिटेड
138.	01-34272	मैसर्स कारटेल मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
139.	01-34370	मैसर्स बन्साल टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
140.	01-34359	मैसर्स शिवा ऑनलाईन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
141.	01-34227	मैसर्स राफ्ट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	01-34146	मैसर्स मयूरशन्मुखा इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
143.	01-34226	मैसर्स हरिता कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
144.	01-34487	मैसर्स फेसिलिटीस इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	01-34497	मैसर्स बायोसाफ्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
146.	01-43431	मैसर्स स्पाइडर्स विक्क्री मल्टीलेवल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
147.	01-41258	मैसर्स ए बी को मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
148.	01-44362	मैसर्स वी जी के स्टील्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
149.	01-44359	मैसर्स अलकज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
150.	01-44342	मैसर्स डी पी यू रिटैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	01-43327	मैसर्स तब्बा टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
152.	01-43297	मैसर्स जीट्रेक्स टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
153.	01-43562	मैसर्स पिक्सिस मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
154.	01-32705	मैसर्स स्कील पॉवर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
155.	01-32883	मैसर्स एक्सप्लोसिक्स कन्सल्टेशन एण्ड अप्लीकेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
156.	01-35974	मैसर्स डी एम डी इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	01-35707	मैसर्स बालाजी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	01-30450	मैसर्स सुधा प्रेम एनर्जीज प्राईवेट लिमिटेड
159.	01-30420	मैसर्स अविस् पॉवर फ्यूल्स लिमिटेड
160.	01-30402	मैसर्स असनुक सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
161.	01-27054	मैसर्स श्री लभार्जना फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड	189.	01-34317	मैसर्स शिविका इन्फोटेक लिमिटेड
162.	01-27785	मैसर्स कोटला कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	190.	01-34429	मैसर्स कन्टीन्युल कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	01-30951	मैसर्स नेटगोल्स साफ्टवेयर लिमिटेड	191.	01-34711	मैसर्स प्रत्याम्नया एजुकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
164.	01-25225	मैसर्स मेगासिटी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	192.	01-34513	मैसर्स श्रवति एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	01-25419	मैसर्स फास्ट्रक वेज-टेक प्राईवेट लिमिटेड	193.	01-34508	मैसर्स बालम्माल शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
166.	01-26348	मैसर्स एन वी एस हार्टिकल्चरल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	194.	01-34552	मैसर्स रेयर सिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
167.	01-27878	मैसर्स श्री सम्पत कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	195.	01-34549	मैसर्स ई 3 एस टेक्नोलोजीज लिमिटेड
168.	01-27923	मैसर्स डाल्लीस फन्टैम प्राईवेट लिमिटेड	196.	01-34516	मैसर्स डेकन प्रोसेस वेस्सिल्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	01-26824	मैसर्स डेक्कन ट्राई-सिटीज चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	197.	01-34629	मैसर्स रघुनाथ फिल्म्स एण्ड साफ्टवेयर लिमिटेड
170.	01-26854	मैसर्स भास्करा आर्चिटेक्चर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड	198.	01-34628	मैसर्स रघुनाथ रिसोर्ट्स एण्ड होस्पिटैलिटी लिमिटेड
171.	01-27409	मैसर्स गंगिनेनि इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	199.	01-30581	मैसर्स गाडि रेड्डी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	01-31505	मैसर्स विकट्री यूनिट मर्केन्टाइल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	200.	01-34056	मैसर्स सिमटेक ऑफशोर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	01-31513	मैसर्स पयोनीर कॉरपोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	201.	01-30379	मैसर्स विजय भानु इन्जीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
174.	01-30789	मैसर्स सम्राट टावर्स प्राईवेट लिमिटेड	202.	01-34764	मैसर्स ऐ-माजिक कम्प्यूटर्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
175.	01-30485	मैसर्स चिर्स साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड	203.	01-34807	मैसर्स एल एन साफ्टकाम कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
176.	01-31916	मैसर्स सुरुचि एग्रो एण्ड मिनरल्स वाटर्स प्राईवेट लिमिटेड	204.	01-44895	मैसर्स रासन सोल्युशन्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
177.	01-34097	मैसर्स उदय साफ्टवेयर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	205.	01-39946	मैसर्स इनेटफिनिटी साफ्टवेयर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
178.	01-34230	मैसर्स निकि फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	206.	01-34133	मैसर्स चन्द एण्ड चन्द ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
179.	01-34313	मैसर्स श्री गणेश ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड	207.	01-33829	मैसर्स तुंगपाडु पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
180.	01-34392	मैसर्स ट्रिटन टैबो टेक प्राईवेट लिमिटेड	208.	01-32506	मैसर्स हुति फ्लेक्सी पाक प्राईवेट लिमिटेड
181.	01-31141	मैसर्स वम्सी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	209.	01-34011	मैसर्स तेजदीप टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
182.	01-30421	मैसर्स प्रालास जेपेट्रोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	210.	01-32519	मैसर्स श्वासा पलमोनरि एण्ड क्रिटिकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
183.	01-30589	मैसर्स राम टेक रीसिंग प्राईवेट लिमिटेड	211.	01-40662	मैसर्स टी एस होम्स प्राईवेट लिमिटेड
184.	01-30586	मैसर्स वड्डाडि इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	212.	01-40530	मैसर्स टच वुड टोबाकोस प्राईवेट लिमिटेड
185.	01-34533	मैसर्स शिवचंद राय मोहनलाल ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड	213.	01-33577	मैसर्स ग्रैण्ड होरिजन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	01-34668	मैसर्स लिटिल गेसचर्स लिमिटेड	214.	01-33706	मैसर्स कल्पतरू डेरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
187.	01-34047	मैसर्स अड्डागाडा चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड			
188.	01-34046	मैसर्स श्री पद्मा मल्टीटेक प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
215.	01-33049	मैसर्स ओम साई राम टाउनशिप प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	01-34997	मैसर्स जेनफलो मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
217.	01-34845	मैसर्स हिमागिरि मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
218.	01-34835	मैसर्स कॉवनेन्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	01-34917	मैसर्स क्वानम मेडिकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
220.	01-34912	मैसर्स पयोनीर ई-कॉम सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
221.	01-34737	मैसर्स उक्कालम कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
222.	01-34729	मैसर्स मेडिसोल.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
223.	01-34717	मैसर्स सन साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
224.	01-33166	मैसर्स आर आर एस इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
225.	01-33168	मैसर्स आर. आर. इन्सोलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	01-33789	मैसर्स मुक्तयाला टी. एम. एस. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
227.	01-33856	मैसर्स अल्ल राजु होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	01-33670	मैसर्स कारटेल एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
229.	01-33316	मैसर्स नल्गोंडा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
230.	01-33630	मैसर्स एस. एल. आर. पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	01-22356	मैसर्स साई श्रीनिवासा रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	01-21801	मैसर्स मारुति विंड एनर्जी डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
233.	01-43406	मैसर्स जाहि नेट वर्क्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
234.	01-22785	मैसर्स वेनहर्स डेयरि प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	01-23577	मैसर्स श्री राज राजेश्वरा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
236.	01-24186	मैसर्स रघुराम कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
237.	01-22169	मैसर्स मिदास बुल्लेन्स लिमिटेड
238.	01-21610	मैसर्स अभिनव एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
239.	01-21970	मैसर्स मेरला फिन सर्व प्राईवेट लिमिटेड
240.	01-23470	मैसर्स नावाजीवन पालिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	01-22584	मैसर्स वंशी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
242.	01-22649	मैसर्स लोरविन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	01-21392	मैसर्स ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेड
244.	01-36846	मैसर्स कृष्णा तेजा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
245.	01-36882	मैसर्स भवानी पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	01-36767	मैसर्स डायमण्ड बायो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
247.	01-36299	मैसर्स आई काप पालिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
248.	01-36803	मैसर्स अल्लूर एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
249.	01-36784	मैसर्स श्री कीर्तन एडवान्स टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
250.	01-36805	मैसर्स पावाश साफ्टवेयर सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	01-36810	मैसर्स एपी हेल्पलाईन प्राईवेट लिमिटेड
252.	01-36780	मैसर्स अल्लुगुवेल्लि हाइड्रो पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
253.	01-36527	मैसर्स वसंत आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
254.	01-36269	मैसर्स अलवलपाडु पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
255.	01-36288	मैसर्स विरिची रिनीवेबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
256.	01-36267	मैसर्स मारटर पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
257.	01-36268	मैसर्स रागाडापा पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
258.	01-36244	मैसर्स सिबार सेक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
259.	01-36245	मैसर्स विन बिज सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	01-36242	मैसर्स एम. एस. सी. टेक्नो साफ्ट लिमिटेड
261.	01-36230	मैसर्स निसार हार्डवेयर एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
262.	01-36209	मैसर्स श्री विजय दुर्गा पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
263.	01-36425	मैसर्स मीनाक्षी सेक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
264.	01-35003	मैसर्स विश्वा साई साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
265.	01-35005	मैसर्स एनविरो सर्किल कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
266.	01-35662	मैसर्स कासिनायाना कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
267.	01-35133	मैसर्स ई. वी. के. ट्रेडिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड

उक्त दर्शाई गई कम्पनियों को प्रस्ताव के अनुसार हटाने के बारे में किसी व्यक्ति विशेष से कोई आपत्ति हो तो वे इस तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनियों के नामों को हटाया जाएगा।

पी. अच्युता रामय्या  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
आन्ध्र प्रदेश



कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 20 जनवरी 2006

सं. टी.ए./आर.ओ.सी./एसईएस-03 व एफटी/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न सूचित 12 कम्पनियों के नाम इस कार्यालय की दस्तावेजों से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ लुप्त हो गई हैं :--

क्रम सं.	पंजीकृत संख्या	कम्पनियों का नाम	पंजीकरण का राज्य
1.	02-04123	मैसर्स आसाम एक्स-सर्विसमैन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
2.	02-02565	मैसर्स गिल ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
3.	02-04752	मैसर्स एफ एम एस हाऊसिंग फाईनान्स लिमिटेड	आसाम
4.	02-05388	मैसर्स बिश्वजीत टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
5.	13-05330	मैसर्स इण्डस सीमेन्ट्स लिमिटेड	मेघालय
6.	02-02773	मैसर्स डालमिया एरोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
7.	02-05872	मैसर्स बोस इन्फोसिस एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
8.	14-03386	मैसर्स लिफायान टिम्बर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैण्ड
9.	14-01793	मैसर्स कोनयाक टिम्बर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	नागालैण्ड
10.	02-03712	मैसर्स न्यू स्क्रीन प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
11.	02-03172	मैसर्स नार्थ ईस्टर्न बिल्डर्स व सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
12.	02-06359	मैसर्स पानसाइ एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर पूर्व क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 25 जनवरी 2006

सं. 560(5)/सेस-2005/471/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्नलिखित कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	475	मैसर्स इन्डेन चिट फण्ड (प्राईवेट) लिमिटेड
2.	795	मैसर्स दि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स एण्ड मेडिकल सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
3.	2140	मैसर्स जय भारत प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
4.	2248	मैसर्स होरिसोन पब्लिशर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
5.	2272	मैसर्स दीप्ती इन्जीनियर्स एण्ड कन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड
6.	2342	मैसर्स अन्नापेर सी-फूड्स एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
7.	2666	मैसर्स वेटर्स कम्प्लेक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
8.	2680	मैसर्स वेनाड ग्रहम इन्टरप्राइजेज (प्राईवेट) लिमिटेड
9.	3077	मैसर्स साउथ इण्डिया रेस्टोरेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
10.	3152	मैसर्स मोहम्मद अली सलीम (ओवरसीज) (प्राईवेट) लिमिटेड
11.	3300	मैसर्स ट्रोपिकल टिम्बर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
12.	3415	मैसर्स डायटेक (प्राईवेट) लिमिटेड
13.	3481	मैसर्स ट्रिनिटी कुरीस एण्ड फाईनान्स (प्राईवेट) लिमिटेड
14.	3594	मैसर्स ग्लेस्ड टाइल्स (केरला) लिमिटेड
15.	3650	मैसर्स केरला रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
16.	3663	मैसर्स नवभारत कन्ज्यूमर्स सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
17.	3764	मैसर्स जया मेटालिक प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
18.	3812	मैसर्स परूर एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड
19.	3989	मैसर्स इन्डो मलबार फूड्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
20.	4219	मैसर्स चेन्नकाडन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	45.	6033	मैसर्स बयोला प्लान्टेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
21.	4295	मैसर्स अक्षय वायर्स एण्ड पाइप्स (प्राईवेट) लिमिटेड	46.	6052	मैसर्स इन्डस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स एण्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (इण्डिया) लिमिटेड
22.	4382	मैसर्स सोनी ट्रान्स कोन्टिनेन्टल (प्राईवेट) लिमिटेड	47.	6116	मैसर्स ब्ल्यू बे शिपिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
23.	4530	मैसर्स इन्डो मलबार टेक्सटाईल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	48.	6135	मैसर्स सौतेन प्रोपेल्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड
24.	4532	मैसर्स स्टोनफील्ड बिजनेस सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	49.	6236	मैसर्स माग्नम होस्पिटल्स लिमिटेड
25.	4557	मैसर्स यादवा हायर परचेज (प्राईवेट) लिमिटेड	50.	6247	मैसर्स अफजुषी एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
26.	4628	मैसर्स आषविन सेल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	51.	6284	मैसर्स कोच्चिन कम्प्यूटर एसेसरीज (प्राईवेट) लिमिटेड
27.	4651	मैसर्स सीवेलथ (इण्डिया) एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	52.	6318	मैसर्स राम्स इन्फो मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
28.	4661	मैसर्स फालकण हायर परचेज एण्ड लीजिंग लिमिटेड	53.	6339	मैसर्स जैश्री टाइल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
29.	4686	मैसर्स सन्कुन्नी नायर मेमोरियल होस्पिटल (प्राईवेट) लिमिटेड	54.	6516	मैसर्स साउथ वेस्ट ट्रेवल्स एण्ड ट्रेड लिंक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
30.	4820	मैसर्स जोस ब्रदर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	55.	6588	मैसर्स सी.वी.एम. गियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
31.	4894	मैसर्स सुधा हर्बल प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	56.	6601	मैसर्स शान पोलिमर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
32.	5070	मैसर्स बास बिल्डर्स इन्जीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	57.	6735	मैसर्स सास ब्रोस इन्जीनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
33.	5076	मैसर्स एलाइट कन्फैक्शनर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	58.	6737	मैसर्स न्यू वेल्ड एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
34.	5186	मैसर्स गोविन्द केमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	59.	6869	मैसर्स जूपिटर ग्रेनाइट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
35.	5313	मैसर्स इन्फ्रा फिशिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड	60.	6872	मैसर्स कायेन ग्रेनाइट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
36.	5467	मैसर्स श्रीनिवास इस्टेट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	61.	6947	मैसर्स रियान फैनब्रिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
37.	5475	मैसर्स भेरिट इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड	62.	6970	मैसर्स वैल्यू इन्वेस्ट (प्राईवेट) लिमिटेड
38.	5582	मैसर्स सी. एस. होस्पिटल (प्राईवेट) लिमिटेड	63.	6977	मैसर्स अडियान कम्प्युनिटी हाल (प्राईवेट) लिमिटेड
39.	5594	मैसर्स मनिमला चिट्स एण्ड कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड	64.	6979	मैसर्स मल्टिटेक फायर प्रोटेक्शन (प्राईवेट) लिमिटेड
40.	5638	मैसर्स सनामेड एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	65.	7017	मैसर्स सी-जे स्टील एण्ड एलोय इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
41.	5642	मैसर्स इन्डस मलबार हाई-टेक रबर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	66.	7134	मैसर्स केरपुष्पम एलोयज एण्ड फैट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
42.	5984	मैसर्स कोच्चिन बीयेम्स बिल्डर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	67.	7171	मैसर्स नेवरमडम प्लास्टिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
43.	6007	मैसर्स यूनिसन रबर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	68.	7177	मैसर्स कास्का किट्स एण्ड सेमी कन्डक्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
44.	6032	मैसर्स वयोला मर्केन्डाइज (प्राईवेट) लिमिटेड	69.	7231	मैसर्स गारहिका बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
			70.	7265	मैसर्स इण्डिया सी फूड्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
71.	7329	मैसर्स वयनाड होस्पिटल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	97.	8572	मैसर्स निरमा सीमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
72.	7473	मैसर्स केन एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	98.	8596	मैसर्स पूवकोड कुरीस एण्ड लोन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
73.	7499	मैसर्स नव भारत आयुर्वेदिक कन्सल्टेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	99.	8710	मैसर्स मैसोर सोल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
74.	7564	मैसर्स मित्रविन्दा कुरीस एण्ड लोन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	100.	8725	मैसर्स नागवल्ली रीयल इस्टेट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
75.	7573	मैसर्स क्रैस ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड	101.	8823	मैसर्स कोरोना एडवर्टाइजिंग एण्ड क्रिएटिव सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
76.	7590	मैसर्स एस्टेट्स प्रेश स्पाइसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	102.	8855	मैसर्स तुषारगिरि रीयल इस्टेट्स एण्ड प्रोपर्टी डेवलपर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
77.	7610	मैसर्स तन्कातोप प्लान्टेशन (प्राईवेट) लिमिटेड	103.	8856	मैसर्स तुषारगिरि रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
78.	7611	मैसर्स क्रिष्को कम्प्यूटर (प्राईवेट) लिमिटेड	104.	8977	मैसर्स शारदा बिल्डर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
79.	7721	मैसर्स श्राम्प कन्सल्टेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	105.	9028	मैसर्स वालकेरस फिशरीज (प्राईवेट) लिमिटेड
80.	7766	मैसर्स लन्सिया रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	106.	9073	मैसर्स सेफ-बेट फार्म्स एण्ड प्लान्टेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
81.	7791	मैसर्स केरला ओरगेनिक फर्टिलाइजर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	107.	9345	मैसर्स मैनाकम कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड
82.	7863	मैसर्स अब्बा ग्रेनाइट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	108.	9351	मैसर्स नोटलील कन्स्ट्रक्शन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
83.	7892	मैसर्स स्टार ऑफ मलबार ट्रेवल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	109.	9714	मैसर्स दि क्राऊन चिट्स एण्ड लोन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
84.	7905	मैसर्स वन्विनाड मैरैन प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	110.	9727	मैसर्स ग्लोब टेक सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
85.	8007	मैसर्स मोन्टेज फिल्मस (प्राईवेट) लिमिटेड	111.	9760	मैसर्स क्रेडिबिल प्रोपर्टीज (प्राईवेट) लिमिटेड
86.	8133	मैसर्स ग्रीन प्रोवेर्स (इण्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड	112.	9779	मैसर्स स्मृति एडवर्टाइजिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
87.	8135	मैसर्स मरीमा फाईनान्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड	113.	9876	मैसर्स साम-साम मिनरेल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
88.	8136	मैसर्स बी. आर. सी. फार्म टेक्स (प्राईवेट) लिमिटेड	114.	9918	मैसर्स रेमनिका फेमिली शोप (प्राईवेट) लिमिटेड
89.	8170	मैसर्स कराना ट्रेवल्स एण्ड ट्रेड लिंक्स लिमिटेड	115.	9987	मैसर्स कनामिन्ड ट्रेडिंग सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
90.	8186	मैसर्स कस्का मार्केटिंग सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	116.	10002	मैसर्स क्वालिटी टिम्बर एण्ड प्लाईवुड (प्राईवेट) लिमिटेड
91.	8211	मैसर्स अटलांटिक प्लान्टेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	117.	10052	मैसर्स बी ट्रान्स (प्राईवेट) लिमिटेड
92.	8260	मैसर्स एम. जे. एम. ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन (प्राईवेट) लिमिटेड	118.	10063	मैसर्स मलन्करा पेट्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
93.	8434	मैसर्स विन्डिया मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	119.	10083	मैसर्स एनाइट हाऊस (प्राईवेट) लिमिटेड
94.	8468	मैसर्स ग्रीष्म एग्रो फार्म्स (प्राईवेट) लिमिटेड	120.	10121	मैसर्स वी एट एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
95.	8527	मैसर्स ओल एम ट्यूब्स (प्राईवेट) लिमिटेड	121.	10140	मैसर्स मनलीपुषा एग्रो एस्टेट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
96.	8532	मैसर्स के. पी. बी. एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	122.	10163	मैसर्स माइन्ड गाइडेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
			123.	10292	मैसर्स राजास मेराइन (प्राईवेट) लिमिटेड
			124.	10350	मैसर्स पञ्चान पैकेजिंग्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
125.	10355	मैसर्स सिज इलेक्ट्रॉनिक्स कोमटेक (प्राईवेट) लिमिटेड	151.	11631	मैसर्स जीलानि टूंस एण्ड ट्रेवल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
126.	10360	मैसर्स फ्यूचर लैब्स (प्राईवेट) लिमिटेड	152.	11694	मैसर्स पडयाट्टी होस्पिटलिटी (प्राईवेट) लिमिटेड
127.	10390	मैसर्स मूथेडथ फाईनान्स (प्राईवेट) लिमिटेड	153.	11703	मैसर्स रिताम मीडिया कन्सोरशियम (प्राईवेट) लिमिटेड
128.	10434	मैसर्स प्रशान्ति बिल्डर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	154.	11713	मैसर्स गुडआर्क लूमन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
129.	10538	मैसर्स मम्पल्ली होल्डिंग्स (प्राईवेट) लिमिटेड	155.	11736	मैसर्स हैप्पी विजन (प्राईवेट) लिमिटेड
130.	10630	मैसर्स लिन्केज सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	156.	11784	मैसर्स माइक्रो सील (प्राईवेट) लिमिटेड
131.	10642	मैसर्स यूनिक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	157.	11799	मैसर्स पूजा टूरिज्म (प्राईवेट) लिमिटेड
132.	10896	मैसर्स शेड ग्रीन डेवलपर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	158.	11800	मैसर्स पूजा एगो प्रोडक्ट्स इण्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड
133.	11105	मैसर्स रॉयल रोडवेज (प्राईवेट) लिमिटेड	159.	11803	मैसर्स सन्दार इम्पेक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
134.	11108	मैसर्स सिन्सीचर धनम मैनेजमेन्ट एण्ड चिट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	160.	11824	मैसर्स पिकनिक टूंस एण्ड ट्रेवल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
135.	11150	मैसर्स एक्स-सर्विस यूनिवर्सल फाईनान्स लिमिटेड	161.	11828	मैसर्स मलबार पॉवर इक्युपमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
136.	11163	मैसर्स साई इन्ट्रेप्रेटेड कुरीज एण्ड फाईनान्स (प्राईवेट) लिमिटेड	162.	11844	मैसर्स प्रबल ग्रेनाइट्स एण्ड मार्बल्स इन्टरप्राइजेज (प्राईवेट) लिमिटेड
137.	11184	मैसर्स ए-वन फैंब्रिकेटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	163.	11866	मैसर्स तिरुवनम एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
138.	11211	मैसर्स टी. आर. आर. ऑटोमोबाइल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	164.	11874	मैसर्स लास्या होटेल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
139.	11251	मैसर्स डास्को प्रोपर्टीज (प्राईवेट) लिमिटेड	165.	11904	मैसर्स ब्रोप डिटेक्टिव्स (प्राईवेट) लिमिटेड
140.	11274	मैसर्स रॉयल सर्विसिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड	166.	11915	मैसर्स अम्बरहा इलेक्ट्रॉनिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
141.	11313	मैसर्स पावर लिक्स एसोसिएट्स एण्ड कन्ट्रैक्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	167.	11917	मैसर्स फेयर टेक मेडिकल डिवाइसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
142.	11322	मैसर्स चानल बिजनेस एण्ड कार्गो (प्राईवेट) लिमिटेड	168.	11932	मैसर्स एम एफ मेडिकल डिवाइसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
143.	11368	मैसर्स गोल्ड पार्क इस्टेट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	169.	11945	मैसर्स इन्स्ट्रुट सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
144.	11441	मैसर्स सेनोरा किचन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	170.	11986	मैसर्स सन ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
145.	11525	मैसर्स लेक्सस बट्टणस (प्राईवेट) लिमिटेड	171.	12014	मैसर्स प्रोमेक प्रोजेक्ट्स एण्ड टेक्नोलोजीज (प्राईवेट) लिमिटेड
146.	11529	मैसर्स स्पेक्स (इण्डिया) मैनुफैक्चरिंग (प्राईवेट) लिमिटेड	172.	12214	मैसर्स जनकीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड
147.	11537	मैसर्स लासर एक्सप्रेस कुरियर एण्ड कार्गो मूवर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	173.	12265	मैसर्स अन्जली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
148.	11544	मैसर्स सुराग इस्टेट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	174.	12297	मैसर्स आकारम आर्किटेक्ट्स एण्ड इन्जीनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
149.	11562	मैसर्स पुनलूर क्रम्ब रबर (प्राईवेट) लिमिटेड	175.	12427	मैसर्स यूनिगार्ड हेल्थकेयर सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
150.	11563	मैसर्स के. एम. आयुर्वेदिक हेल्थ केयर (इण्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड			

1	2	3
176.	12431	मैसर्स केनसोफ्ट कन्सलटेन्सी सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
177.	12453	मैसर्स बुराक मोटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
178.	12469	मैसर्स भार ग्रिगेरियस लोटरी सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
179.	12509	मैसर्स आकृति पैकेजिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
180.	12631	मैसर्स स्टेप इन कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड
181.	12683	मैसर्स रिवीयेरा डिस्टिलरीज (प्राईवेट) लिमिटेड
182.	12718	मैसर्स जी. के. मार्केट नेटवर्क एण्ड सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
183.	12743	मैसर्स सौबद्रम सोफ्टवेयर डेवलपमेन्ट एण्ड एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
184.	12750	मैसर्स पोरो-टेक सॉफ्टवेयर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
185.	12763	मैसर्स डायरेक्ट कोरपोरेट डाटा सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
186.	12765	मैसर्स जीवन पेपर मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
187.	12771	मैसर्स प्रोमोर एजेन्सीज (प्राईवेट) लिमिटेड
188.	12784	मैसर्स सुवर्ण कन्फेक्शनरी (प्राईवेट) लिमिटेड
189.	12786	मैसर्स अल्टोस ग्लेर ट्रेड एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
190.	12795	मैसर्स फैंसी हाऊसिंग एण्ड रीयल इस्टेट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
191.	12802	मैसर्स काकसेरी ऑटोमोबाइल रिपेयर्स एण्ड सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
192.	12853	मैसर्स मयूरा शिपिंग एण्ड कारगो सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
193.	12861	मैसर्स सम्पान मेराइन टेक्नोलोजी (प्राईवेट) लिमिटेड
194.	12877	मैसर्स आल्ट सोफ्ट इन्फोटेक (प्राईवेट) लिमिटेड
195.	12897	मैसर्स श्रिष्ठी गारमेन्ट्स एण्ड ट्रेड (प्राईवेट) लिमिटेड
196.	12907	मैसर्स मेट्रो लिफ्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
197.	12908	मैसर्स एनर्जिटेक कम्यूनिकेशन्स एण्ड सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
198.	12926	मैसर्स नोम्सन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3
199.	12981	मैसर्स साम्बशि कुन्नेल सूपर बाजार (प्राईवेट) लिमिटेड
200.	13014	मैसर्स साइबर क्रिएशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लत  
कम्पनी पंजीयक  
केरला

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में :

कोच्चि-682021, दिनांक 27 जनवरी 2006

सं. 560(5)/एस.सी.एस.-2005/527/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	13020	मैसर्स ओडीसी ओवरसीज सर्विसेस एण्ड ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
2.	13034	मैसर्स एम. डोस इन्फो सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
3.	13037	मैसर्स मलबार एग्रो प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
4.	13052	मैसर्स शिवशक्ति कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड
5.	13065	मैसर्स गेटवे इन्फोटेक (इण्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड
6.	13079	मैसर्स एक्ससर्विसमेन एक्सपोर्ट्स सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
7.	13086	मैसर्स एड्टक सोफ्टवेयर डेवलपमेन्ट (प्राईवेट) लिमिटेड
8.	13089	मैसर्स रॉयल डिनेर्स डेन (प्राईवेट) लिमिटेड
9.	13094	मैसर्स कैरली फूड्स (प्राईवेट) लिमिटेड
10.	13107	मैसर्स मैको-मैको एक्सोटिक होलिडेज (प्राईवेट) लिमिटेड
11.	13113	मैसर्स मैत्री पब्लिशिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड
12.	13115	मैसर्स स्काईविनास एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
13.	13122	मैसर्स एरनाड इन्फोटेक (प्राईवेट) लिमिटेड
14.	13123	मैसर्स ग्रैन्ड स्लाम इन्फोटेक (प्राईवेट) लिमिटेड
15.	13129	मैसर्स मोबिलयर एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
16.	13139	मैसर्स पय्यप्पिल्ली सुनिलस ड्रेस गैलरी (प्राईवेट) लिमिटेड	41.	13807	मैसर्स जीवन होम एण्ड प्रोपर्टीज डेवलपर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
17.	13148	मैसर्स कूल ब्रीस इन्टरप्राइजेज (प्राईवेट) लिमिटेड	42.	13842	मैसर्स होजोस किचन (प्राईवेट) लिमिटेड
18.	13162	मैसर्स नवोदया पब्लिकेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	43.	13850	मैसर्स अलेग्रो कम्प्यूटर्स एण्ड पेरिफरल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
19.	13164	मैसर्स ग्लक्लिच मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड	44.	13881	मैसर्स पेन्डगोन वेलिंग्स (प्राईवेट) लिमिटेड
20.	13168	मैसर्स शक्ति मेराइन्स एण्ड फूड्स (इण्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड	45.	13888	मैसर्स डाम्परज मोडिया (प्राईवेट) लिमिटेड
21.	13170	मैसर्स राजश्री टेक्नोलोजीज (प्राईवेट) लिमिटेड	46.	13967	मैसर्स प्रज्योति आयुर्वेदा सुपर स्पेशियलिटी होस्पिटल (प्राईवेट) लिमिटेड
22.	13175	मैसर्स स्पैसमारक मेरकन्यईल (प्राईवेट) लिमिटेड	47.	13922	मैसर्स मलबार एरन मूवर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
23.	13176	मैसर्स ई. के. एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	48.	13925	मैसर्स इन्टरकोम टेक्नोलोजीज (प्राईवेट) लिमिटेड
24.	13186	मैसर्स डैनेरस डेल रिसोर्ट्स एण्ड मोटल्स (इण्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड	49.	13936	मैसर्स तोडुपुशा सुपर स्पेशियलिटी होस्पिटल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
25.	13195	मैसर्स साउथ इण्डिया कार्ड्स (प्राईवेट) लिमिटेड	50.	13941	मैसर्स अल जडीड बेकरी (प्राईवेट) लिमिटेड
26.	13232	मैसर्स मेल केमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	51.	13959	मैसर्स ट्रोपिकल इन्फो सोल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
27.	13252	मैसर्स टेस्टोमान्स फूड्स एण्ड बिबरेजस (प्राईवेट) लिमिटेड	52.	13979	मैसर्स के. के. मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टेशन (प्राईवेट) लिमिटेड
28.	13278	मैसर्स कोलोनियल क्रिएशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	53.	14005	मैसर्स नम्बलिकारन्स ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
29.	13398	मैसर्स हैगेट हेरिटेज एण्ड रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	54.	14019	मैसर्स वी5 कम्प्युनिकेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
30.	13418	मैसर्स भारतीय एनवायरमेन्टल इन्सपेक्शन एण्ड प्रोटेक्शन सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	55.	14020	मैसर्स बेस्टेक मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
31.	13453	मैसर्स चान्डीस प्रीमियम करी सोसस एण्ड स्प्रेड्स (प्राईवेट) लिमिटेड	56.	14022	मैसर्स सिद्धा वैद्या सेन्टर फॉर हाइपरटेंशन एण्ड डाइबिटीज (प्राईवेट) लिमिटेड
32.	13476	मैसर्स सिनेचर वेयर ब्रोकेर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	57.	14054	मैसर्स मलयिल टूरिज्म लिमिटेड
33.	13488	मैसर्स अभी मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	58.	14080	मैसर्स दृश्या टी. वी. (प्राईवेट) लिमिटेड
34.	13511	मैसर्स गरजनम प्रिन्टिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड	59.	14088	मैसर्स बोस्को अल्यूमिनियम एण्ड ग्लास कम्पनी (इण्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड
35.	13583	मैसर्स पीपिल्स फोटो (प्राईवेट) लिमिटेड	60.	14092	मैसर्स धिष्णा सेक्युरिटीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
36.	13617	मैसर्स ए. जे. के. इन्टेक (प्राईवेट) लिमिटेड	61.	14094	मैसर्स मार्टिन कैपिटल सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
37.	13682	मैसर्स हिरान्ज सुपर शोप लिमिटेड	62.	14107	मैसर्स चेकबुड.कॉम (प्राईवेट) लिमिटेड
38.	13694	मैसर्स फोर स्टार होटल एण्ड रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	63.	14109	मैसर्स जे. वी. टी. प्रोपर्टीज पुनलूर (प्राईवेट) लिमिटेड
39.	13719	मैसर्स क्वाड्रा सॉफ्टकोम सोल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड			
40.	13726	मैसर्स हाई-पावर इन्फोमैटिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
64.	14118	मैसर्स पारटेक सेक्युरिटीज (प्राईवेट) लिमिटेड	92.	14778	मैसर्स जे एम आर एस मार्केटिंग सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
65.	14148	मैसर्स लेनईसी सॉफ्टवेयर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	93.	14800	मैसर्स रेईन्बो बूट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
66.	14151	मैसर्स श्री ट्रेड्स (प्राईवेट) लिमिटेड	94.	14872	मैसर्स एच. एस. सी. नेट (प्राईवेट) लिमिटेड
67.	14158	मैसर्स ग्रोमाक्स इन्फोरेन्स सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	95.	14877	मैसर्स एडेन स्पाइसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
68.	14176	मैसर्स हेक्सागोन सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर सल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	96.	14881	मैसर्स जोआन एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
69.	14193	मैसर्स करिष्मा कम्प्युनिकेशन (प्राईवेट) लिमिटेड	97.	14892	मैसर्स जय वडक्कुमनाथन कुरीज (कोरला) (प्राईवेट) लिमिटेड
70.	14241	मैसर्स पालक्काड मेनपावर एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	98.	14906	मैसर्स 3 सी इन्फोटेक (प्राईवेट) लिमिटेड
71.	14257	मैसर्स सम्याक ट्रेडिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड	99.	14933	मैसर्स जुबलटच्य मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
72.	14259	मैसर्स मल्टीप्लेक्स मीडिया (प्राईवेट) लिमिटेड	100.	14970	मैसर्स बिग फूट इवेन्ट्स एण्ड प्रमोशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
73.	14312	मैसर्स आटेक एनिमल केयर लिमिटेड	101.	15066	मैसर्स ओपोरचुन सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
74.	14318	मैसर्स कोसोध एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	102.	15067	मैसर्स कुडपुषा फाऊन्डेशन फॉर डेवलपमेन्ट एण्ड हाऊसिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
75.	14323	मैसर्स यूसीसी कोरियर नेटवर्क (प्राईवेट) लिमिटेड	103.	15069	मैसर्स इन्टेग्रल कन्सलटेन्सी एण्ड पॉवर टेक्नोलोजीज (प्राईवेट) लिमिटेड
76.	14339	मैसर्स पल्स एटी सोल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड	104.	15092	मैसर्स मेक-हैड इन्जीनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
77.	14343	मैसर्स टेकमारकोन (प्राईवेट) लिमिटेड	105.	15100	मैसर्स पेरिन्वेल्लूर रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
78.	14350	मैसर्स प्लान्टरिच केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	106.	15101	मैसर्स तोमस ग्रोम सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
79.	14374	मैसर्स होटल हाई रेस (प्राईवेट) लिमिटेड	107.	15123	मैसर्स एन.एस.टी. टूर्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड
80.	14375	मैसर्स एमराल्ड हेल्थ केयर (प्राईवेट) लिमिटेड	108.	15275	मैसर्स ट्रान्सेन्ड फार्मान्शियल सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
81.	14396	मैसर्स क्वाड्रम इन्फोसर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	109.	15440	मैसर्स रिचफील्ड सोल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
82.	14397	मैसर्स जे एण्ड ए डाटा सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड	110.	15476	मैसर्स मृत्युंजय मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
83.	14408	मैसर्स साईराम्स मेडिकल टेक्नोलोजीज (प्राईवेट) लिमिटेड	111.	15514	मैसर्स प्रो एक्ट ट्रेड्स (प्राईवेट) लिमिटेड
84.	14444	मैसर्स ट्रिचूर गोल्डक्राफ्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	112.	15520	मैसर्स अमास्को सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर (प्राईवेट) लिमिटेड
85.	14476	मैसर्स तोट्टल स्टॉक्स एण्ड शेयर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	113.	15549	मैसर्स स्पैस मार्केट (प्राईवेट) लिमिटेड
86.	14490	मैसर्स सिस्टम्स हाऊस (प्राईवेट) लिमिटेड	114.	15583	मैसर्स एक्सेल ट्रेनिंग सेन्टर फॉर एयरलाइन सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
87.	14560	मैसर्स न्यूरो डायग्नोस्टिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टर (प्राईवेट) लिमिटेड	115.	15705	मैसर्स शट्टर बग फोटोग्राफिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
88.	14608	मैसर्स सौगयाना अक्वाटेक (प्राईवेट) लिमिटेड	116.	15724	मैसर्स फोरटेक सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
89.	14724	मैसर्स सन एण्ड सैन्ड रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	117.	15725	मैसर्स जिन्वन एक्जिम (प्राईवेट) लिमिटेड
90.	14755	मैसर्स ड्रीम वेन्डर्स टूर कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड			
91.	14770	मैसर्स होटल सनोज (प्राईवेट) लिमिटेड			

1	2	3
118.	15754	मैसर्स नेक्सस मीडिया (प्राईवेट) लिमिटेड
119.	15779	मैसर्स ट्रावनकोर स्टील्स (प्राईवेट) लिमिटेड
120.	15872	मैसर्स बूस्टर प्रोफेशनल मैनेजमेन्ट (प्राईवेट) लिमिटेड
121.	15889	मैसर्स वरेण्या कम्प्यूटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
122.	15891	मैसर्स मुनार लेक हिलटॉप्स (प्राईवेट) लिमिटेड
123.	15893	मैसर्स ब्लूसेम ग्लोब्स (प्राईवेट) लिमिटेड
124.	15978	मैसर्स पन्जिकारन्स डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज (प्राईवेट) लिमिटेड
125.	16111	मैसर्स सुकरामम रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
126.	16265	मैसर्स प्लानेट पेइन्ड्स (प्राईवेट) लिमिटेड
127.	16299	मैसर्स फ्यूचर विजन बिजनेस कन्सलटेन्सी (प्राईवेट) लिमिटेड
128.	16322	मैसर्स लाइफ गार्ड एडवर्टाइजर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
129.	16419	मैसर्स स्प्रिंलिंग्स सोल्यूशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
130.	16515	मैसर्स इकोपार्क फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
131.	16601	मैसर्स पल्लवी हेल्थकेयर (प्राईवेट) लिमिटेड
132.	16638	मैसर्स ट्रेडिशनल रेमेडीज (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3
133.	16726	मैसर्स ग्रीन क्वोस्ट हरबल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
134.	16785	मैसर्स शशि शंकर टूर्स एण्ड ट्रेवेल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
135.	16850	मैसर्स आई एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल फाउन्डेशन केरला (प्राईवेट) लिमिटेड
136.	17074	मैसर्स सेवनहिल्स वेब सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
137.	17077	मैसर्स यात्रा आर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
138.	17109	मैसर्स सी एस एस ग्रुप टूर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
139.	17148	मैसर्स ट्रेड्स फेयर्स एण्ड मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
140.	17231	मैसर्स आन्स पेपर प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
141.	17258	मैसर्स डाइनामिक डिस्कवरी लैण्ड एण्ड रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
142.	17273	मैसर्स मोन्डलिच्च बीच रिसोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड
143.	17642	मैसर्स साब अन्सेरा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
144.	18063	मैसर्स ग्रीन बेकवाटर एक्सपीरियन्स (प्राईवेट) लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लत  
कम्पनी पंजीयक  
केरला



## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 1st September 2005

No. A-32014/2/2004-Admn.III.—The President is pleased to promote the following Assistants of the CSS Cadre of Union Public Service Commission as Section Officers on ad-hoc basis for the period mentioned against them or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	From	To
	S/Shri		
1.	V. K. Jain	05.08.2005 (AN)	Until further orders
2.	Mahabir Shankar	31.08.2005	31.12.2005

2. The Promotion of above Assistants as Section Officer on ad-hoc basis will be subject to the following conditions:—

- (i) Ad-hoc promotions have been made purely as a stop-gap arrangement and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade.
- (ii) Ad-hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officers grade are available through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular Section Officers.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 18th October 2005

No. A-12025(ii)/1/2003-Admn.III.—Consequent upon their nomination to the CSS cadre of Union Public Service Commission for inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003 vide Department of Personnel and Training's OM No. 5/22/2005-CS-I dated 14th September, 2005, the President is pleased to appoint the following regular Assistants/PA of the CSS/CSSS Cadre of Union Public Service Commission as Section Officers in the same cadre w.e.f. the forenoon of 14th September, 2005:—

Sl. No.	Name	Rank No.	Service to which belong
1.	Ms. Sarita Taneja	058	PA of CSSS
2.	Ms. Rakhee Sadhu	163	Assistant of CSS
3.	Sh. Raja Kar	171	Assistant of CSS

2. The appointment of these persons to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & others Vs. Union of India & others before the Hon'ble Delhi High Court.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 18th November 2005

No. P-2928/Admn.III.—Consequent upon his selection for temporary deputation to CGI, Jeddah (Saudi Arabia) as Assistant Haj Officer for Haj, 2006, by the M/o External Affairs (Haj Cell) vide their letter No. M(Haj)1183/03/2005 (Haj Cell) dated 09.11.2005, Md. Nasim Khan, Desk Officer of the CSS cadre of UPSC stands relieved of his duties in the Commission's Office w.e.f. the forenoon of 21st November, 2005 with the direction to report to Ministry of External Affairs, Haj Cell, Panch Mahal, Akbar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi-110021. He will be entitled to draw pay and allowances during the period of his deputation as per terms & conditions mentioned in Para 3 of the said letter of the M/o External Affairs dated 09.11.2005.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 23rd December 2005

No. P-3281/Admn.III.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Sudhir Naswa, Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 23rd December 2005 at his own request. Shri Naswa stands relieved of his duties with effect from the afternoon of 23rd December 2005.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 4th January 2006

No. A-32013/5/2004-Admn.II.—In continuation of this Office Notification of even number dated 03.10.2005 and pursuant to the approval of the competent authority, the appointment of Shri Jai Prakash, as Sr. Estate Manager & Meeting Officer in the office of the UPSC in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (Group 'A' Gazetted) is hereby extended for a further period of three months w.e.f. 30.12.2005 to 29.03.2006, or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Jai Prakash as Sr. EM&MO shall continue to be on ad-hoc basis and the same shall not confer upon him any right for regular appointment in the grade and the service rendered on ad-hoc basis shall not count towards seniority in the grade.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

## DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

New Delhi-110003, the 27th January 2006

No. A-4/12/2005.—Director of Enforcement hereby appoints the following Inspectors of Central Excise; Income-Tax and Police as Enforcement Officers on deputation basis w.e.f. the dates indicated against their names for the period of three years or until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of joining
1.	Sh. Manish	04.07.2005
2.	Sh. Ram Kumar Pandey	08.07.2005
3.	Sh. M. K. Sinha	14.02.2003
4.	Sh. P. C. Sothwal	09.06.2005
5.	Sh. Rakesh Kumar Chopra	02.09.2005 (FN)

ATUL VERMA  
Dy. Director (Admn.)

No. A-4/12/2005.—Director of Enforcement hereby appoints the following Superintendents of Central Excise as Chief Enforcement Officers on deputation basis w.e.f. the dates indicated against their names for the period of three years or until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of joining
1.	Sh. R. Muthukumar	25.07.2005
2.	Sh. S. Venkatesh	01.07.2005

ATUL VERMA  
Dy. Director (Admn.)

No. A-4/12/2005.—Director of Enforcement hereby appoints the following Enforcement Officers of this Directorate to officiate as Chief Enforcement Officers on promotion w.e.f. the dates indicated against their names or until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of joining
	S/Shri	
1.	K. V. Ananthakrishnan	11.08.2005
2.	R. C. Singh	11.08.2005
3.	K. V. Verghese	16.08.2005 (FN)
4.	P. Ganesan	22.08.2005 (FN)
5.	Smt. G. S. Chandini	18.08.2005 (FN)

ATUL VERMA  
Dy. Director (Admn.)

No. A-4/12/2005.—Director of Enforcement hereby appoints the following Enforcement Officers/Supdt. of this Directorate to officiate as Chief Enforcement Officers on promotion w.e.f. the dates indicated against their names or until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of joining
	S/Shri	
1.	K. Mani	07.11.2005
2.	Surender Singh	07.11.2005
3.	B. Kistoorchand	19.12.2005 (AN)

ATUL VERMA  
Dy. Director (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 27th January 2006

No. DPPERS.1/2006/0014/3/24/97.—The President is pleased to appoint Shri Masood Ahmed, Public Prosecutor, CBI as Senior Public Prosecutor in the CBI with effect from the afternoon of 30.12.2005 and until further orders.

S. D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers.)

The 31st January 2006

No. DP/PERS.I/2006/0016/3/45/2001.—Services of Shri Sudhir Pratap Singh, IPS (RJ: 1983), Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of CISF with effect from the forenoon of January 07, 2006 on his appointment as IG in CISF.

S. D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS.I/2006/0017/3/5/99.—Services of Shri Hari Nath Mishra, IPS (KL: 1990), Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, have been placed back at the disposal of Government of Kerala with effect from the afternoon of January 03, 2006 on repatriation.

S. D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 30th January 2006

No. 2/4/06-Admn.-16396.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri T. Jagannadha Rao, Personal Assistant in the Commission as Private Secretary,

in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 30.01.2006 till 03.04.2006 or till further orders, whichever is earlier.

2. Appointment of Shri T. Jagannadha Rao, to the post of Private Secretary is purely temporary and on ad-hoc basis under rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

MANGE LAL  
Officer on Special Duty  
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE OF COORDINATION  
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 23rd January 2006

No. A-17011/47(R-91)/2004-Admn.I.—Shri Rajendra Singh, Extra Assistant Director (Cipher) of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.12.2005.

KAMALESH DEKA  
Director, Police Telecommunications

No. A-17011/49(C-22)/2004-Admn.I.—Shri Chander Prakash Srivastava, Deputy Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation on 31.12.2005(AN).

KAMALESH DEKA  
Director, Police Telecommunications

The 30th January 2006

No. A-12012/6/AD/2005-Admn.II.—Dr. Suresh Vinayak, Extra Assistant Director of this Directorate has been promoted to the post of Assistant Director in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- with effect from 2nd January, 2006 until further orders.

KAMALESH DEKA  
Director, Police Telecommunications

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 20th January 2006

No. O.II.3675/06-CRC(MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Akhtar Ahmed as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the afternoon of 05.11.2005 till further order. He is posted to 31 Bn.

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 23rd January 2006

No. E-16015/(2)/2003/Pers.I/08.—The President is pleased to appoint Shri K. N. Tripathy, Commandant to the rank of Senior Commandant in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/-. He is posted at CISF Unit Kolkata airport, where he assumed the charge of Senior Commandant in the forenoon of 9th December, 2005.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 25th January 2006

No. E-16013/(1)/SPS/06/Pers.II/313.—On appointment as Inspector General in Central Industrial Security Force on deputation basis in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/-, Shri Sudhir Pratap Singh, IPS (RJ: 1983) has reported at CISF HQrs., New Delhi on 09.01.2006 (FN) and assumed the charge of the post of Inspector General, CISF (North Sector), Saket, New Delhi w.e.f. 10.01.2006(AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 31st January 2006

No. E-16013/(1)/5/97/Pers.I/360.—On repatriation to parent cadre, Shri A. R. Kini, IPS (BH: 1981), Inspector General, CISF (NS) HQrs., Saket, New Delhi relinquished the charge of the post of Inspector General, CISF (NS) HQrs., Saket, New Delhi in the afternoon of 31st December, 2005. The officer has been sanctioned 60 days Earned Leave w.e.f. 01.01.2006 with permission to visit foreign country i.e. Dubai (UAE) during the leave period.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT)  
(CENTRAL REVENUES)

New Delhi-110002, the 25th January 2006

No. Admn.I/O.O. No.-290.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Chhedi Lal, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from Government Service on 31.01.2006 (AN).

His date of birth is 20.01.1946 and he joined government service on 20.07.1966.

K. PRASAD  
Director (Admn.)

No. Admn.I/O.O. No.-292.—Consequent upon acceptance of the notice for voluntary retirement by the Director General of Audit under Rule 48-A of C. C. S. (Pension) Rules, Shri Vijender Singh Chauhan, Private Secretary of this office will be retiring from Government Service on 31.03.2006 (FN).

His date of birth is 12.09.1958 and he joined government service on 29.03.1979.

K. PRASAD  
Director (Admn.)

No. Admn.I/O.O. No.-304.—Director General of Audit, Central Revenues, hereby appoints Smt. Asha Rani Bhumbee, Private Secretary to officiate as Senior Private Secretary in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.01.2006 (Forenoon) until further orders.

K. PRASAD  
Director (Admn.)

The 30th January 2006

No. Admn.I/O.O. No.-309.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the following Audit Officers of this office to officiate as Senior Audit Officer in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 02.01.2006 (FN) until further orders:—

Names
S/Shri
1. Chaman Bhandari
2. Promod Kant Sharma
3. Deepak Kumar Gupta
4. Vivek Kumar
5. Jawahar Lal

K. PRASAD  
Director (Admn.)

No. Admn.I/O.O. No.-310.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the following Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.01.2006 (FN) until further orders:—

Names
1. Smt. Sangeeta Dua
2. Shri Dinesh Kumar Sharma

K. PRASAD  
Director (Admn.)

# OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 2006

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officer (Civil) with effect from the date noted against his name:—

Sl. No.	Name of the Officer and designation	Date of retirement
---------	-------------------------------------	--------------------

1. Sh. D. Murali Krishna, SAO 30.11.2005

C. SAILAJA  
Sr. D. A. G. (Admn.)

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officer (Civil) with effect from the date noted against his name:—

Sl. No.	Name of the Officer and designation	Date of retirement
---------	-------------------------------------	--------------------

1. Sh. S. Venkateswara Rao-III, SAO 31.12.2005

C. SAILAJA  
Sr. D. A. G. (Admn.)

# OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ORISSA (COMMERCIAL, WORKS & RECEIPT AUDIT)

Bhubaneswar, the 22nd December 2005

No. E.O. No.: 07.—In pursuance of Head Qrs. office sectional office order No. CA-I/Admn/96 dated 28.10.2005, communicated vide this office OOC (Coml) No. 62 dated 06.12.2005, Shri Immanuel Swarup Cormaty, AAO (Coml) on his promotion has assumed charge as Audit Officer (Coml) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,500/- w.e.f. 28.11.2005 (FN) in the Commercial Audit Wing of the O/o the Accountant General (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar.

The promotion to cadre of Audit Officer (Coml) is subject to the final decision of Hon'ble High Court/Supreme Court/CAT etc. on the cases, if any, sub-judice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claims of his seniors.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

# MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT (LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 31st January 2006

No. 5/1/2005-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base: 1982=100

has decreased by 3 points to stand at 550 (five hundred & fifty) for the month of December, 2005.

R. K. GUPTA  
Dy. Director

### SURVEY OF INDIA

(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)

Dehradun-24800, the 23rd January 2006

No. C-16/1800(1).—The undermentioned Group 'C' Draftsman Division-I is promoted as Chief Draftsman, Group 'B' Post (Gazetted, Non-Ministerial) in Survey of India on regular basis in the Scale of Pay Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as shown against his name:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri P. L. Bachhawan (SC)	01.12.2005
M. GOPAL RAO Major General Surveyor General of India		

No. C-23/718-A.—The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted as Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- on regular basis with effect from the dates as shown against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Sohan Swarup (SC)	01.12.2005
2.	Shri Jhalkan Ram Mahra (SC)	29.12.2005
M. GOPAL RAO Major General Surveyor General of India		

### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 24th January 2006

No. PD/11(1)/2005-R-III/108.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Sandeep S. Deokar, Upper Division Clerk, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 20.06.2005 (FN) to 23.12.2005 (AN).

(SMT.) V. T. RAJAN  
Dy. Establishment Officer

The 25th January 2006

No. PD/11(2)/2005-R-III/117.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Rajaraman Chandrasekaran, Asstt. Accounts Officer, Accounts Division

as Accounts Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 21.11.2005 (FN) to 23.12.2005 (AN).

(SMT.) V. T. RAJAN  
Dy. Establishment Officer

No. PD/11(2)/2005-R-III/118.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Suma Jayaraj Menon, Asstt. Accountant to officiate as Asstt. Accounts Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 21.11.2005 (FN) to 23.12.2005 (AN).

(SMT.) V. T. RAJAN  
Dy. Establishment Officer

No. PD/15(1)/2001-R-III/119.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri V. Vasavan, Private Secretary (Non-secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 03.08.2005, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

(SMT.) V. T. RAJAN  
Dy. Establishment Officer

No. PD/15(1)/2001-R-III/120.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Annamma Thomas, Private Secretary (Non-secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 01.08.2005, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

SMT. V. T. RAJAN  
Dy. Establishment Officer

### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400094, the 12th January 2006

No. DPS/07019/Rectt./6468.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri G. Satyanarayana, Storekeeper, HRSU, DPS, Hyderabad as Assistant Stores Officer in the scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/- in a temporary capacity in Stores Unit, DPS, AMD, Nagpur with effect from 29.12.2005 (FN) until further orders.

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III

### (BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY)

Navi Mumbai-400705, the 28th January 2006

No. BRIT/9/18/2006/01.—The President is pleased to

appoint Kum. Sujata Saha as Scientific Officer (C) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. from the forenoon of September 01, 2005 until further orders.

A. K. KOHLI  
Chief Executive

No. BRIT/9/18/2006/02.—The President is pleased to appoint Kum. Neetu Thakral as Scientific Officer (C) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. from the forenoon of September 01, 2005 until further orders.

A. K. KOHLI  
Chief Executive

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH)

Hyderabad-500016, the 27th January 2006

No. AMD-4/1/2005-Rect/1765.—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade of Scientific Officer-D carrying the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Directorate in an officiating capacity with effect from 01.02.2005 until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/ Scale of Pay	Substantive Post held	Date of Assumption of Charge
1.	Shri S. K. Garai	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325-15,200	GRP-A (SCI.)	01.02.2005

R. M. SINHA  
Director

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400094, the 24th January 2006

No. HWB/R/2(5)/2006/76.—The President is pleased to appoint the following persons as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Heavy Water Plants mentioned against each at column No. 5 with effect from the forenoon of September 01, 2005 in a temporary capacity until further orders:—

Sl. No.	Name	Discipline	Initial Pay (Rs.)	Name of the Plant
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	Burragoni Anil Kumar	Electrical	9,100/-	HWP (Manuguru)
2.	Chintalapati Goutham	Chemical	9,100/-	HWP (Manuguru)
3.	Santosh Kumar Dewangan	Instrumentation (E&C)	8,825/-	HWP (Manuguru)
4.	Neetesh Parsai	Chemical	9,100/-	HWP (Baroda)
5.	Ramanuj Parihar	Mechanical	9,100/-	HWP (Baroda)
6.	Mayank Desai	Instrumentation	9,100/-	HWP (Talcher)

R. K. SAINI  
Chief Administrative Officer

No. HWB/R/4(16)/2006/77.—President is pleased to appoint Shri Akshaya Kumar Sahoo, Scientific Officer/D, Heavy Water Plant (Talcher) as Scientific Officer/E in the

scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from February 1, 2005 in the same office in a temporary capacity until further orders.

Shri Sahoo relinquished charge of the lower post of Scientific Officer/D held by him w.e.f. 01.02.2005 (FN).

R. K. SAINI  
Chief Administrative Officer

---

DEPARTMENT OF SPACE

(SATISH DHAWAN SPACE CENTRE SHAR)

Sriharikota-524124, the 21st December 2005

No. SCF/PGA/ESTT-II/15/05.—The Controller, SDSC SHAR is pleased to appoint on promotion the following personnel to the post of Personal Assistant-D in the grade of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 29.10.2004 and until further orders at SDSC SHAR, Sriharikota.

1. Shri V. Veeraraghavaiah
2. Shri Ch. Venkatramaiah

V. PRASAD  
Sr. Administrative Officer  
Head of Office  
for Controller

No. SCF/PGA/ESTT-II/15/05.—The Controller, SDSC SHAR is pleased to appoint on promotion Shri G. Mohan Rao as Project Stenographic Assistant in the grade of Rs. 6,500-200-10,500/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 25.04.2005 until further orders as SDSC SHAR, Sriharikota.

V. PRASAD  
Sr. Administrative Officer  
Head of Office  
for Controller

---

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-3, the 18th January 2006

No. A-32013/4/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri P. Shaw, Regional Controller of Air Safety, Mumbai to the post of Director of Air Safety on promotion on purely ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- for a period of six months w.e.f. 17.01.2006 or till the post is filled up on regular basis which ever is earlier.

CHANAN RAM  
Dy. Director of Administration

The 24th January 2006

No. A-32013/2/2005-E.II.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Maheshwari, Deputy Director General (Ad-hoc) in the Office of the Director General of Civil Aviation to the post of Deputy Director General in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- on regular basis with effect

from the forenoon of 16th January, 2006 and until further orders.

CHANAN RAM  
Dy. Director of Administration

---

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 5th January 2006

No. F.48-Ad(AT)/2005.—Shri K. N. Muniraj, Office Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai is appointed to officiate as Assistant Registrar on ad-hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Chandigarh Benches, Chandigarh in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 7th December, 2005 for a period of six months in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.48-Ad(AT)/2005.—Shri N. C. Kachari, Office Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Kolkata Benches, Kolkata is appointed to officiate as Assistant Registrar on ad-hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Visakhapatnam Bench, Visakhapatnam in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 12th December, 2005 for a period of six months in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.48-AD(AT)/2005.—Shri K. C. Kutty, Senior Private Secretary, Income-tax Appellate Tribunal, Chennai Benches, Chennai retired from Government Service on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 30th November, 2005.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.48-AD(AT)/2005.—Shri P. Rengaraju, Senior Private Secretary, Income-tax Appellate Tribunal, Chennai Benches, Chennai retired from Government Service on

attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st October, 2005.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.301-Ad(AT)/2005.—Shri K. Shanmugasundaram, Steno, O/o the Postmaster General, Southern Region, Madurai, is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 14.12.2005 (F.N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

The 17th January 2006

No. F.48-Ad(AT)/2005.—Shri P. C. Badrinarayan, Office Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Chandigarh Benches, Chandigarh is appointed to officiate as Assistant Registrar on ad-hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Guwahati Benches, Guwahati (with Headquarters at Kolkata) in a purely temporary capacity with effect from the afternoon of 5th January, 2006 for a period of six months in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the services rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.48-Ad(AT)/2005.—Shri C. K. Somai, Head Clerk, Income-tax Appellate Tribunal, Jodhpur Bench, Jodhpur is appointed to officiate as Assistant Registrar on ad-hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Ranchi Bench, Ranchi (with Headquarters at Delhi) in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 2nd January, 2006 for a period of six months in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.301-Ad(AT)/2005.—Shri Kanhaiya Kumar, P. S., Debts Recovery Tribunal, Kolkata, is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Kolkata Benches, Kolkata in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 03.11.2005 (F.N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

#### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

#### (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

#### OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arushi Steel and Alloys Private Limited

New Delhi-110019, the 19th December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/42140/7056.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arushi Steel and Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trendy Tropical Foods Limited

New Delhi-110019, the 20th December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/60754/8446.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trendy Tropical Foods Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Veer Investments Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/7366/8471.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of



the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Veer Investments Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gurgaon Investments and Finance Private  
Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55375/8484.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gurgaon Investments and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prestige Finance & Chit Fund Company Private  
Limited

New Delhi-110019, the 16th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-7204/8666.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prestige Finance & Chit Fund Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dudeja Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 16th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05-34709/8671.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dudeja Chit Fund Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. C. R. Digital Technologies Limited

New Delhi-110019, the 17th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/35382/8876.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. T. C. R. Digital Technologies Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Embark Sales Private Limited

New Delhi-110019, the 16th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/117236/8886.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Embark Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Century Realtors Private Limited

New Delhi-110019, the 16th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/75346/8881.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Century Realtors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Onkar Tour and Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 16th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/40951/8891.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Onkar Tour and Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bigston Electronics Limited

New Delhi-110019, the 16th January 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/27496/8896.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bigston Electronics Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Associated Hybilds Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10656/9061.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Associated Hybilds Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prestige Lights Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10692/9064.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prestige Lights

Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. Mohan Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10551/9067.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. Mohan Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shyam Papermills Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-10380/9070.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shyam Papermills Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. K. N. Consultants & Management Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-66399/9073.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. K. N. Consultants & Management Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raya Power Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-85020/9076.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raya Power Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aarsh Technocrat Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-93055/9079.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aarsh Technocrat Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Durga Dass Sanjay Kumar Finishings Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-129810/9082.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Durga Dass Sanjay Kumar Finishings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. The Oriental Refrigeration and Engineering Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-3056/9087.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. The Oriental

Refrigeration and Engineering Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Soft Access International Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-88019/9091.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Soft Access International Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ABC Boot Factory Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-92104/9093.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ABC Boot Factory Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Unison Air & Sea Cargo Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-76579/9096.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unison Air & Sea Cargo Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nayar Software & Transcription Services Private  
Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-107144/9099.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nayar Software & Transcription Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maruti Buildwel Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-90716/9102.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maruti Buildwel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. N. A. Finance & Leasing Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-73645/9108.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. N. A. Finance & Leasing Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. N. Capital Management Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49886/9111.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. N. Capital Management Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aeon Computers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49860/9114.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aeon Computers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalsactive Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49406/9117.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalsactive Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balaji Door Devices Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49008/9120.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Balaji Door Devices Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gromax Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49950/9123.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gromax Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Compage Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49518/9126.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Compage Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Falcon Exim Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49797/9129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Falcon Exim Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prospecta Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49823/9132.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prospecta Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bright Education Centre Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49190/9135.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bright Education Centre Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saya Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49351/9138.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saya Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjin Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49811/9141.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjin Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A Zero Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49688/9144.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A Zero Marketing Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. H. B. Takkar Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49184/9147.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H. B. Takkar Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pinnacle Electro System Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49764/9150.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pinnacle Electro System Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Servo Paints Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49143/9153.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Servo Paints Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Imod Financial and Management Consultant Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49780/9156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Imod Financial and Management Consultant Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. G. Babu Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-48551/9159.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P. G. Babu Investments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Advanced Communication Electronics Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-48418/9162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Advanced Communication Electronics Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sakshi Granites Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-48171/9165.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sakshi Granites

Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Computer Links (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-48188/9168.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Computer Links (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ishuaditya Investment and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-48437/9171.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ishuaditya Investment and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Avenue Finance & Investment Company  
Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-48394/9174.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Avenue Finance & Investment Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adventure Apparel Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-46126/9177.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adventure Apparel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raman Electrical Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-4888/9180.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raman Electrical Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shalini Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49861/9183.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shalini Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sansar Travel Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-49845/9186.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sansar Travel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. All Fours Marketing & Holding Company Private  
Limited.

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-80986/9189.—Notice is hereby  
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of M/s. All Fours  
Marketing & Holding Company Private Limited has this  
day been struck off from the Register and the said Company  
is dissolved from the date of this publication in Gazette  
Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Whitestar Trading & Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-097665/9192.—Notice is  
hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560  
of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.  
Whitestar Trading & Exports Private Limited has this  
day been struck off from the Register and the said  
Company is dissolved from the date of this publication  
in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ascent Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/05-34286/9195.—Notice is hereby  
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ascent Chit  
Fund Private Limited has this day been struck off from the  
Register and the said Company is dissolved from the date  
of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Spotlight Communication Organising Private  
Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-92744/9198.—Notice is hereby  
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spotlight

Communication Organising Private Limited has this day  
been struck off from the Register and the said Company is  
dissolved from the date of this publication in Gazette  
Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arty Ads Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-95328/9201.—Notice is hereby  
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arty Ads Private  
Limited has this day been struck off from the Register and  
the said Company is dissolved from the date of this  
publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Biometrics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-8864/9209.—Notice is hereby  
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Biometrics  
Private Limited has this day been struck off from the  
Register and the said Company is dissolved from the date  
of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Naroli Estates Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36199/9207.—Notice is hereby  
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Naroli Estates  
Private Limited has this day been struck off from the  
Register and the said Company is dissolved from the date  
of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Frank Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36459/9210.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Frank Farms Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arusha Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36614/9213.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arusha Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vineet Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36950/9216.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vineet Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. MIS Investment & Commercial Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36551/9219.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. MIS Investment & Commercial Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is

dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Solo Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36601/9222.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Solo Investments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Roxy Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36392/9225.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Roxy Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Spark Paints Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36933/9228.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spark Paints Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ishwar Developers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36391/9231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ishwar Developers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. M. D. Fashion Exclusives Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36506/9234.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. M. D. Fashion Exclusives Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hemsons Estate Developers and Dealers Private  
Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36585/9237.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hemsons Estate Developers and Dealers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. NTM Investment & Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36965/9240.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. NTM Investment & Trading Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Northern Conveyors (India) Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2005/560(3)/55-50773/9243.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Northern Conveyors (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SPN Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-103954/9248.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SPN Engineering Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. C. Leasing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-95566/9251.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. C. Leasing Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balaji Hospitality Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-45616/9254.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Balaji Hospitality Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Albatross Express Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-88024/9257.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Albatross Express Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vignette Advertising & Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36156/9260.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vignette Advertising & Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. D. Gulshan & Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36029/9263.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. D. Gulshan

& Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Goodman Travels Limited

New Delhi-110019, the 20th December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-89960/9269.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Goodman Travels Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Astron Laboratories Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-79001/9274.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Astron Laboratories Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sakara Consultants & Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36990/9279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sakara Consultants & Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dheeraj Distributors Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36715/9282.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dheeraj Distributors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ishita Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36251/9285.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ishita Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mathur Fuel Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-7188/9288.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mathur Fuel Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Natraj Rubber Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-7483/9291.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Natraj

Rubber Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lukman Hospital Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36848/9297.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lukman Hospital Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nitbob Estates & Resorts Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-030995/9300.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nitbob Estates & Resorts Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surya Meadows Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36397/9303.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surya Meadows Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. NTM Construction Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36966/9306.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. NTM Construction Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Perfect Coil Tech Company Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36367/9309.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Perfect Coil Tech Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Freeman Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-036725/9312.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Freeman Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Align Publication Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-36370/9318.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Align Publication Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Media Consultancy Bureau Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-30850/9321.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Media Consultancy Bureau Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Comfort Group of Hotels Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/14170/9329.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Comfort Group of Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Agrogold International Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/88156/9326.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Agrogold International Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ADB Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55-21572/9334.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ADB Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vaskad Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/49896/9339.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vaskad Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avant Garde Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/22526/9342.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Avant Garde Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vee Kay Informatics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/22608/9345.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vee

Kay Informatics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nikita (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/22864/9348.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nikita (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Competent Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/22075/9351.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Competent Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Devidayal Metal Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3403/9354.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Devidayal Metal Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Globe Woollen Mills (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3483/9357.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Globe Woollen Mills (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Usha Diecasting Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/5103/9360.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Usha Diecasting Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Somani Plastic Industries Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/10740/9363.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Somani Plastic Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Udyog Bharati Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3492/9368.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Udyog Bharati

Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satana Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3534/9371.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Satana Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Impex & Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3630/9374.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Impex & Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. United Auto House Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3446/9377.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. United Auto House Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Azad Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/3561/9380.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Azad Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. B. Rolling Mills Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/22171/9383.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. B. Rolling Mills Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vintage Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55653/9389.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vintage Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajasthan Meat Products Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55330/9392.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

Rajasthan Meat Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yadav Theatre Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55514/9395.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yadav Theatre Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Caretaker Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55666/9398.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Caretaker Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kirit Oil & Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/49185/9401.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kirit Oil & Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gem Estates Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/36394/9410.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gem Estates Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madhush Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55452/9438.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madhush Investments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunglow Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/55103/9441.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sunglow Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hasmukh Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55/7615/9472.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560

of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hasmukh Travels Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cosmetics and Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2005

No. SES/2003/560(5)/55-5673/9475.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cosmetics and Chemicals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bandana Dyestuff & Intermediates Private  
Limited

Kanpur-208001, the 23rd January 2006

No. 560(3)/SES-5605/5012.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bandana Dyestuff & Intermediates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kolkata, the 31st January 2006

No. ROC/WB/IPC/File-1/560/SES-2005.—Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sub Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 under SES 2005. The following Companies have this day been

struck off from the "Register" of Registrar of Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	83919	M/s. A. K. Tan Pvt. Ltd.
2.	84728	M/s. Aaikatan Food and Allied Products Pvt. Ltd.
3.	48208	M/s. Aar Pee Jay Viniyog Ltd.
4.	70070	M/s. Abashese Griha Nirman Pvt. Ltd.
5.	87279	M/s. Achieveit Marketing Pvt. Ltd.
6.	63605	M/s. Ad-On-Wheels Pvt. Ltd.
7.	60951	M/s. Adds Confreight Pvt. Ltd.
8.	41258	M/s. Agarwal Enchem Pvt. Ltd.
9.	25319	M/s. Agrimp Pvt. Ltd.
10.	86695	M/s. Akash International Pvt. Ltd.
11.	5417	M/s. Akshay Zamindary Pvt. Ltd.
12.	31830	M/s. Alata Chakra & Company Ltd.
13.	99063	M/s. Alliance Towers Pvt. Ltd.
14.	79968	M/s. Ametek Gauges Pvt. Ltd.
15.	29711	M/s. Ankasigo Exports Pvt. Ltd.
16.	60638	M/s. Anshu Vanijya Pvt. Ltd.
17.	62615	M/s. Anug Tower Pvt. Ltd.
18.	29236	M/s. Anupam Pictures Pvt. Ltd.
19.	30109	M/s. Aqua Fauna India Pvt. Ltd.
20.	30608	M/s. Aradhana Films Pvt. Ltd.
21.	74319	M/s. Atlantic Vanijya Pvt. Ltd.
22.	26832	M/s. Auto Structures Pvt. Ltd.
23.	56204	M/s. Baba Mahadeva Properties Pvt. Ltd.
24.	42599	M/s. Balaji Automobiles Pvt. Ltd.
25.	96976	M/s. Bangabihar Housing Project Pvt. Ltd.
26.	13754	M/s. Banik & Company Pvt. Ltd.
27.	77682	M/s. Bansal Sanitary Ware Pvt. Ltd.
28.	66881	M/s. Banshidhar Dealcomm Pvt. Ltd.
29.	22026	M/s. Bansra (Agriculture) Pvt. Ltd.
30.	34103	M/s. Baru Properties Pvt. Ltd.
31.	57658	M/s. Beavers Suppliers Pvt. Ltd.
32.	39623	M/s. Bengal Granite Pvt. Ltd.
33.	28478	M/s. Bhagalpur Flour Mills Pvt. Ltd.

I	2	3
34.	32881	M/s. Bhaskar Electra Pvt. Ltd.
35.	53325	M/s. Bhojnagar Wala Resorts Pvt. Ltd.
36.	57203	M/s. Blended Commercial & Financial Pvt. Ltd.
37.	16955	M/s. Bombay Photo Stores Pvt. Ltd.
38.	89678	M/s. Bravo Aviation Pvt. Ltd.
39.	52285	M/s. Bukss Computer Systems & Supports Pvt. Ltd.
40.	27598	M/s. C I C Chemicals Pvt. Ltd.
41.	63413	M/s. Calcutta Tanneries Development Company Ltd.
42.	32120	M/s. Chakravorty & Company (Fertilisers) Pvt. Ltd.
43.	25821	M/s. Chakulia Steel & Metal Works Pvt. Ltd.
44.	26022	M/s. Chatuskone Pvt. Ltd.
45.	60488	M/s. Chokhani Financial Services Pvt. Ltd.
46.	26310	M/s. Chopra Jute & Gunnies Pvt. Ltd.
47.	74897	M/s. Citigate Dealer Pvt. Ltd.
48.	26439	M/s. Coalfield Publishers Pvt. Ltd.
49.	88368	M/s. Connoisseurs Hospitality Services Pvt. Ltd.
50.	74212	M/s. Cosco Electronics Pvt. Ltd.
51.	80997	M/s. Crystal Lamps Pvt. Ltd.
52.	57226	M/s. D. P. Interlogic Systems Pvt. Ltd.
53.	28804	M/s. Dakalia Trading Company Pvt. Ltd.
54.	41171	M/s. Data Tech Services Pvt. Ltd.
55.	93080	M/s. Deep-Shikha Gas Services Pvt. Ltd.
56.	22025	M/s. Dingalhati (Agriculture) Pvt. Ltd.
57.	49043	M/s. Dream's Wing Tour & Travels Pvt. Ltd.
58.	73215	M/s. Dreamair Fans Ltd.
59.	47827	M/s. Drihyfen Air & Gas Systems Pvt. Ltd.
60.	36327	M/s. Eastel Impex Ltd.
61.	46342	M/s. Eastern Asphalts Pvt. Ltd.
62.	79132	M/s. Eastern Computell Pvt. Ltd.
63.	8963	M/s. Eastern Drug Company Ltd.
64.	85383	Ms. Eastern Speedlink Pvt. Ltd.
65.	96655	M/s. Elgin Properties Pvt. Ltd.
66.	22714	M/s. Engineering Enterprises Pvt. Ltd.

1	2	3
67.	22087	M/s. Exporters & Distributors (India) Pvt. Ltd.
68.	26892	M/s. Express Wirerods Pvt. Ltd.
69.	67810	M/s. Exxon Securities Pvt. Ltd.
70.	82872	M/s. Ferro Products Pvt. Ltd.
71.	24878	M/s. Forest Hotel Pvt. Ltd.
72.	77990	M/s. Frontline Vinimay Pvt. Ltd.
73.	61370	M/s. Gandhi Viniyog Pvt. Ltd.
74.	24632	M/s. Geekay Investment Pvt. Ltd.
75.	24395	M/s. Gekedas & Sons Pvt. Ltd.
76.	58708	M/s. Globe Lubricants Pvt. Ltd.
77.	30671	M/s. Good Export Pvt. Ltd.
78.	22315	M/s. Gopal Chandra Paul & Brothers Pvt. Ltd.
79.	22516	M/s. Gopal Nagar (Agriculture) Pvt. Ltd.
80.	88166	M/s. Grihasth Provisions Pvt. Ltd.
81.	38739	M/s. Gulmohar Synthetics Pvt. Ltd.
82.	27054	M/s. Gurup Gold Storage Pvt. Ltd.
83.	93164	M/s. Helpage Nursing Home Pvt. Ltd.
84.	83772	M/s. Herbivorous Husbandary Research and Development Project Pvt. Ltd.
85.	38488	M/s. Highland Blood Stock Pvt. Ltd.
86.	28113	M/s. Hind Nectars Pvt. Ltd.
87.	36496	M/s. House of Exports Ltd.
88.	28309	M/s. Indian Carbon Paper (Industries) Pvt. Ltd.
89.	26117	M/s. Indoflex Pvt. Ltd.
90.	51721	M/s. Infelt Finance & Investment India Ltd.
91.	70097	M/s. Inncarnation Agro-Tech Pvt. Ltd.
92.	23830	M/s. Internal Transport Manufacturers Pvt. Ltd.
93.	41093	M/s. J. C. Tanneries Pvt. Ltd.
94.	81703	M/s. Janardan Steels Pvt. Ltd.
95.	91816	M/s. Joy Guru Fabricatings Pvt. Ltd.
96.	20636	M/s. Joysree Eng. Works Pvt. Ltd.
97.	38042	M/s. Jui Printers Pvt. Ltd.
98.	35372	M/s. K. C. Mitra Properties Pvt. Ltd.
99.	35206	M/s. K. C. Mitra (Exports) Pvt. Ltd.
100.	42971	M/s. Kamala Fisheries Pvt. Ltd.

1	2	3
101.	26462	M/s. Katras Ice & Cold Storage Pvt. Ltd.
102.	83220	M/s. Kavita Minerals Pvt. Ltd.
103.	43456	M/s. Kbrasco Traders Pvt. Ltd.
104.	28438	M/s. Kharsawan Refractories & Minerals Pvt. Ltd.
105.	34810	M/s. Kohinoor Roadways Pvt. Ltd.
106.	88283	M/s. Kunj Organics Pvt. Ltd.
107.	75136	M/s. Laser Corporate Intelligence Services Pvt. Ltd.
108.	86958	M/s. Le-M-Pro Enterprises Pvt. Ltd.
109.	26740	M/s. Linguaprint Pvt. Ltd.
110.	64402	M/s. Lyrid Exim Pvt. Ltd.
111.	81032	M/s. M. D. Centre Impex Pvt. Ltd.
112.	85063	M/s. M. M. Transcribe Pvt. Ltd.
113.	38193	M/s. Magna Publications Pvt. Ltd.
114.	83947	M/s. Mahanadi Bearings & Engineering Pvt. Ltd.
115.	33171	M/s. Malsi Elimpex Enterprises Pvt. Ltd.
116.	74772	M/s. Mamta Tracon Pvt. Ltd.
117.	87854	M/s. Manasa Prasad Gorai and Agro Company Pvt. Ltd.
118.	52287	M/s. Mancon Exports Pvt. Ltd.
119.	38074	M/s. Manisha Ply Industries Pvt. Ltd.
120.	18705	M/s. Mansfield Oil Gas Company Ltd.
121.	41296	M/s. Maritime Sea Food Products (India) Pvt. Ltd.
122.	22068	M/s. Maurani (Agriculture) Pvt. Ltd.
123.	65869	M/s. MC Donald's Fast Food Pvt. Ltd.
124.	91962	M/s. Merline Flowers Exports Pvt. Ltd.
125.	55277	M/s. Micro & Macro Engineers Pvt. Ltd.
126.	66443	M/s. Milkyway Exports Pvt. Ltd.
127.	89669	M/s. Millennium Event Managers Pvt. Ltd.
128.	84466	M/s. Miracles Infertility & Genetic Research Pvt. Ltd.
129.	86355	M/s. Mitind Exports Pvt. Ltd.
130.	88736	M/s. Montessori Cyber Kid Ltd.
131.	38588	M/s. Mukti Agencies Pvt. Ltd.
132.	47972	M/s. N C Roy & Company (Jewellers) Pvt. Ltd.
133.	34527	M/s. Nandip Services Pvt. Ltd.

1	2	3
134. 71555	M/s. Nat Communication & Marketing Pvt. Ltd.	
135. 37634	M/s. Nidhi Alloys & Chemicals Pvt. Ltd.	
136. 37300	M/s. Nirmal Cold Storage Pvt. Ltd.	
137. 49983	M/s. Nu-Look Towers Pvt. Ltd.	
138. 37234	M/s. Olympus Process Controls (India) Pvt. Ltd.	
139. 35640	M/s. Omis Trading Pvt. Ltd.	
140. 85882	M/s. Orion In & Out Pvt. Ltd.	
141. 28789	M/s. P. Banerji Exports Pvt. Ltd.	
142. 91640	M/s. Palomex Traders Pvt. Ltd.	
143. 84402	M/s. Panasonic Lighting Pvt. Ltd.	
144. 85109	M/s. Pankaj Printers Pvt. Ltd.	
145. 69861	M/s. Parikrama Mercantile Pvt. Ltd.	
146. 27805	M/s. Paul's Medical Pvt. Ltd.	
147. 38942	M/s. Pavitra Vit Nigam Pvt. Ltd.	
148. 67916	M/s. Pee Gee Commercial Pvt. Ltd.	
149. 87004	M/s. Pelican Holiday Inn Pvt. Ltd.	
150. 31322	M/s. Perfect Perforation Pvt. Ltd.	
151. 64767	M/s. Perse Finance & Leasing Ltd.	
152. 57232	M/s. Petrocon Laboratory Pvt. Ltd.	
153. 34774	M/s. Piffco Engineering Works Pvt. Ltd.	
154. 81844	M/s. Pioneer Scan Pvt. Ltd.	
155. 85910	M/s. PMD Entertainments Pvt. Ltd.	
156. 77163	M/s. Polo Commercial Pvt. Ltd.	
157. 38238	M/s. Prahladka Consultancy Services Pvt. Ltd.	
158. 37657	M/s. Praveen Commercials Pvt. Ltd.	
159. 75278	M/s. Pravin Sign & Display Pvt. Ltd.	
160. 54651	M/s. Premier Hoist Pvt. Ltd.	
161. 73296	M/s. Pro Medical Systems Pvt. Ltd.	
162. 28645	M/s. Progressive Projects Services Pvt. Ltd.	
163. 36755	M/s. Radhakrishnan Steel Mills Pvt. Ltd.	
164. 24054	M/s. Railways & Minerals Pvt. Ltd.	
165. 63856	M/s. Rajhansh Goods Pvt. Ltd.	
166. 36153	M/s. Ramkanai Electro Works Pvt. Ltd.	
167. 25212	M/s. Raney Iron & Steel Works Pvt. Ltd.	
168. 12582	M/s. Refrigeration Equipment Pvt. Ltd.	

1	2	3
169. 98915	M/s. Rowland Tea Factoring Pvt. Ltd.	
170. 30705	M/s. S&M Shoe Pvt. Ltd.	
171. 29593	M/s. S. D. B. Engineering Industries Pvt. Ltd.	
172. 24108	M/s. S. P. Bhattacharjee & Bros. Pvt. Ltd.	
173. 89200	M/s. Safedrive Carriers Pvt. Ltd.	
174. 31562	M/s. Salient Engineering & Processing Industries Ltd.	
175. 66177	M/s. Santoshi Merchants Pvt. Ltd.	
176. 38879	M/s. Shree Vardaan Distributors Pvt. Ltd.	
177. 72310	M/s. Shreeram Rubber Pvt. Ltd.	
178. 34264	M/s. Shri Charbhuj Properties Pvt. Ltd.	
179. 37077	M/s. Sicom Service & Trading Company Pvt. Ltd.	
180. 63295	M/s. Sikdar Enterprises Pvt. Ltd.	
181. 34902	M/s. Singhee Marine Services Pvt. Ltd.	
182. 86626	M/s. Solar Plexus Research Laboratory Pvt. Ltd.	
183. 60606	M/s. Sonali & Sonasoli Agency Pvt. Ltd.	
184. 95672	M/s. Sree Bengal Distillery Pvt. Ltd.	
185. 22069	M/s. Sree Krishnapur (Agriculture) Pvt. Ltd.	
186. 27554	M/s. Sri Guru Engineering Works Pvt. Ltd.	
187. 31671	M/s. Standard Lub-Chem Pvt. Ltd.	
188. 42031	M/s. Star Agro-Industrial Products Pvt. Ltd.	
189. 73185	M/s. Suhana Cement Pvt. Ltd.	
190. 63683	M/s. Sunbird Steels Pvt. Ltd.	
191. 32075	M/s. Sunsam (India) Pvt. Ltd.	
192. 29089	M/s. Super Refrigerators Pvt. Ltd.	
193. 63005	M/s. Supersonic Travels Pvt. Ltd.	
194. 81247	M/s. Supreme Finance Ltd.	
195. 74513	M/s. Synimse Consultants Pvt. Ltd.	
196. 38037	M/s. System Technology Pvt. Ltd.	
197. 21963	M/s. Tangabaria (Agriculture) Pvt. Ltd.	
198. 67526	M/s. Teereco Agency Pvt. Ltd.	
199. 99479	M/s. Tiger Overseas Pvt. Ltd.	
200. 65029	M/s. Tips Fiscoles Pvt. Ltd.	
201. 65672	M/s. Tips Hotels Resorts & Health Farms Pvt. Ltd.	

1	2	3
202.	67527	M/s. Tracry Suppliers Pvt. Ltd.
203.	48440	M/s. Trishul Apartments Pvt. Ltd.
204.	37983	M/s. TTD Packaging & Plastics Ltd.
205.	33024	M/s. Ultramat Properties Pvt. Ltd.
206.	64465	M/s. Unipak Air Express Pvt. Ltd.
207.	54149	M/s. United Art-O-Built Consultancy Pvt. Ltd.
208.	39914	M/s. Unitex Extinguishes India Pvt. Ltd.
209.	29309	M/s. Utkal Gases Ltd.
210.	90596	M/s. Uturn Films Pvt. Ltd.
211.	35839	M/s. Visakha Valley Fabcons Ltd.
212.	39283	M/s. Walkman Engineering Company Pvt. Ltd.
213.	69071	M/s. Wartsila Commodore Pvt. Ltd.
214.	68887	M/s. Waterlod Planners Pvt. Ltd.
215.	41404	M/s. Weltron Electronics Pvt. Ltd.
216.	52353	M/s. Wheelguard Lubricants & Specialities Pvt. Ltd.
217.	33873	M/s. Yashrang & Company Ltd.

T. P. SHAMI  
Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Bangalore, the 25th January 2006

No. ROCB/AROC/(SKG)/560(3)/SES-2005/2005-06.—  
Notice is hereby given pursuant to the provision of Sub  
Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956  
that at the expiration of three months from the date hereof,  
the name of the following Companies unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Comy. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	24915	M/s. Alpha Centuari Pvt. Ltd.
2.	28931	M/s. Blazon Software Solutions Pvt. Ltd.
3.	30739	M/s. Denscity Imaging Pvt. Ltd.
4.	26559	M/s. Netrack Solutions Pvt. Ltd.
5.	25857	M/s. Access Medi-Reach Pvt. Ltd.

1	2	3
6.	34806	M/s. Jindal Aluminium & Steel Ltd.
7.	29382	M/s. Advanced Corporate Solutions Pvt. Ltd.
8.	29381	M/s. Charle Ville Resources Pvt. Ltd.
9.	32029	M/s. Noesis Technologies Pvt. Ltd.
10.	27101	M/s. Izumba. Com Pvt. Ltd.
11.	32019	M/s. Acsis Technologies Business Systems Pvt. Ltd.
12.	24920	M/s. EMC Info Systems Pvt. Ltd.
13.	30688	M/s. Kriti Infotech Pvt. Ltd.
14.	31310	M/s. Eduware Knowledge Systems Pvt. Ltd.
15.	31378	M/s. Partake Financial Services Pvt. Ltd.
16.	28747	M/s. Capella Infotech Pvt. Ltd.
17.	28759	M/s. Redstone Software Pvt. Ltd.
18.	29437	M/s. Marine Bio Tech Pvt. Ltd.
19.	31163	M/s. M. B. Rock India Pvt. Ltd.
20.	30731	M/s. Springvision Software Solutions Pvt. Ltd.
21.	27506	M/s. Vismartpos Pvt. Ltd.
22.	26020	M/s. Hassan Automobiles Company Pvt. Ltd.
23.	31133	M/s. SPS Aishwarya Sales & Services Pvt. Ltd.
24.	25418	M/s. Akshatha Chemicals Pvt. Ltd.
25.	26375	M/s. Nestor Technologies Pvt. Ltd.
26.	25566	M/s. Sri Ramalingeshwara Sugars Ltd.
27.	25866	M/s. Avatar Technologies Pvt. Ltd.
28.	25331	M/s. Agriware Technologies Pvt. Ltd.
29.	35272	M/s. Advinus Laboratories Pvt. Ltd.
30.	30628	M/s. Vignan Marketing & Consultancy Services Pvt. Ltd.
31.	24044	M/s. Hiremath Hire Purchase & Leasing Pvt. Ltd.
32.	30379	M/s. Kwick Info Solutions Pvt. Ltd.
33.	27429	M/s. I-Soft Systems Pvt. Ltd.
34.	31726	M/s. Shree Krishna Tools Manufacturing Pvt. Ltd.
35.	29029	M/s. Gopinath Radio Taxi Services Pvt. Ltd.
36.	29543	M/s. MSR Dairy Products Pvt. Ltd.

1	2	3
37.	29849	M/s. Pixelbrahma Graphics Pvt. Ltd.
38.	29731	M/s. First Secure Consultancy and Management Services Pvt. Ltd.
39.	26417	M/s. Karibasaveshwar Sugar Mills Pvt. Ltd.
40.	24556	M/s. J. M. Apartments Pvt. Ltd.
41.	25233	M/s. Elsoft Solutions Pvt. Ltd.
42.	27694	M/s. Sujaynet Technologies Pvt. Ltd.
43.	26509	M/s. Instrument Explorer. Com Pvt. Ltd.
44.	32995	M/s. Aekna Interiors Pvt. Ltd.
45.	25940	M/s. Jogimatti Wind Power Pvt. Ltd.
46.	24424	M/s. Prayog Chemicals & Consultants Pvt. Ltd.
47.	25419	M/s. Davanagere Hilltop Resorts Pvt. Ltd.
48.	29327	M/s. Digiline Smart Card Solutions Pvt. Ltd.
49.	29238	M/s. Elixir Infoway Pvt. Ltd.
50.	28452	M/s. DCS Software (India) Pvt. Ltd.
51.	34971	M/s. Abzu Contract Research Services Pvt. Ltd.
52.	32499	M/s. AVS Spice Pvt. Ltd.
53.	27803	M/s. Fiworld Solutions India Pvt. Ltd.
54.	27358	M/s. Pracetas Information Solutions Pvt. Ltd.
55.	31894	M/s. Procure Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
56.	25793	M/s. DA Consulting (DACG) India Pvt. Ltd.
57.	29906	M/s. Jayaram Karthik Impex Pvt. Ltd.
58.	27857	M/s. Noasis Technologies Pvt. Ltd.
59.	27775	M/s. Sysfour Solutions India Pvt. Ltd.
60.	25982	M/s. Akshata Tex (Hubli) Pvt. Ltd.
61.	24907	M/s. IBIS Health Products Pvt. Ltd.
62.	30323	M/s. Tac Express Couriers & Cargo Pvt. Ltd.
63.	31358	M/s. Sudarshan Optilinks Ltd.
64.	26330	M/s. Dharwad Diagnostic and Research Centre Pvt. Ltd.
65.	28788	M/s. Kalpatharu Brokerage Pvt. Ltd.
66.	33486	M/s. Spandana Information Technologies Pvt. Ltd.
67.	31531	M/s. Quicktech Compusolutions Pvt. Ltd.

1	2	3
68.	26978	M/s. Tropicana Club Pvt. Ltd.
69.	31449	M/s. B. N. Medical Publications Pvt. Ltd.
70.	25609	M/s. Oxford Slacks India Pvt. Ltd.
71.	29047	M/s. Indway Net4 Pvt. Ltd.
72.	24209	M/s. Vibgyor Tex Processors Pvt. Ltd.
73.	29975	M/s. Colorent Multitech Pvt. Ltd.
74.	29481	M/s. Bluewizz Technologies Pvt. Ltd.
75.	30267	M/s. Sushir Hotels Pvt. Ltd.
76.	29664	M/s. Chimera Biosystems Pvt. Ltd.
77.	25277	M/s. Rorek Engineering Company Pvt. Ltd.
78.	29244	M/s. Bangalore Technological Innovations Pvt. Ltd.
79.	32554	M/s. Ket-Senson Engineering (India) Pvt. Ltd.
80.	27235	M/s. Les Concierges Service Provider Pvt. Ltd.
81.	28152	M/s. Desi Power Anantapur Pvt. Ltd.
82.	27457	M/s. CS Technologies (India) Pvt. Ltd.
83.	30667	M/s. Exceptional Software Pvt. Ltd.
84.	25963	M/s. Speed Way Auto Services Pvt. Ltd.
85.	26596	M/s. Damden Infotech Pvt. Ltd.
86.	31174	M/s. Marketing Technologies Analytics and Solutions (India) Pvt. Ltd.
87.	26542	M/s. Safal Systems Pvt. Ltd.
88.	32147	M/s. Arab Consulting Engineers Moharram Bakhoun Pvt. Ltd.
89.	30383	M/s. Elvin Net Informatics Pvt. Ltd.
90.	28780	M/s. Kareen Projects Pvt. Ltd.
91.	32403	M/s. Galvaz Fashion Craft Pvt. Ltd.
92.	26989	M/s. Travex Agencies Pvt. Ltd.
93.	24134	M/s. Wall Street Journal India Pvt. Ltd.
94.	24135	M/s. Asian Wall Street Journal India Pvt. Ltd.
95.	24133	M/s. Dow Jones and Company India Pvt. Ltd.
96.	28583	M/s. Hope Networks Pvt. Ltd.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Hyderabad-500195, the 30th December 2005

No. RAP/SES-2005/560(3)/Dec-2005.—Notice is hereby given that the following Companies have applied to this office for striking off their names under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) dated 28.01.2005 of Government of India, Ministry of Company Affairs. Notice is hereby given that after the expiry of 30 days from the date hereof the following names of the Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off as a defunct Company from the Register of this office and they will be dissolved.

Sl. No.	Comy. No.	Company Name
1	2	3
1.	01-42658	M/s. Kriger Research Center Pvt. Ltd.
2.	01-42425	M/s. Spearhead Nandan Bio Extracats Pvt. Ltd.
3.	01-42816	M/s. Masna Trading Pvt. Ltd.
4.	01-42313	M/s. Dharma Sai Realtors Pvt. Ltd.
5.	01-42242	M/s. Euro Autogas Energies Pvt. Ltd.
6.	01-42197	M/s. Rajula Technologies Pvt. Ltd.
7.	01-44814	M/s. Dandamudi Plasters Pvt. Ltd.
8.	01-38117	M/s. Penguin Resorts Pvt. Ltd.
9.	01-38216	M/s. Sri Shiridi Sai Puravas Builders Pvt. Ltd.
10.	01-38301	M/s. Cyberabad Clubs and Resorts Pvt. Ltd.
11.	01-38248	M/s. Yalta Technologies Pvt. Ltd.
12.	01-38225	M/s. Cipra Systems Pvt. Ltd.
13.	01-38217	M/s. Sri Krishnamohana Priya Marketing Pvt. Ltd.
14.	01-38691	M/s. Laveena Road Lines Pvt. Ltd.
15.	01-38631	M/s. Pranava Software Solutions Pvt. Ltd.
16.	01-38602	M/s. Ingredient Exports Pvt. Ltd.
17.	01-40759	M/s. India Serum Ltd.
18.	01-40490	M/s. Spandhana Granites Pvt. Ltd.
19.	01-38624	M/s. West-Tech Edumedia Pvt. Ltd.
20.	01-38597	M/s. Broiler Breeder Pvt. Ltd.
21.	01-38592	M/s. Roxy Plating Technology Pvt. Ltd.
22.	01-38524	M/s. Enigma Entertainment Pvt. Ltd.

1	2	3
23.	01-38578	M/s. Seasons Healthcare (Pharma) Ltd.
24.	01-40013	M/s. Taipan Electronics Pvt. Ltd.
25.	01-40121	M/s. Symet Builders Pvt. Ltd.
26.	01-40027	M/s. Greenleaf Technologies Pvt. Ltd.
27.	01-37858	M/s. Syndicate Fire Media Pvt. Ltd.
28.	01-37824	M/s. Vineet Exim Pvt. Ltd.
29.	01-37822	M/s. Neelam Reat Estates Pvt. Ltd.
30.	01-37121	M/s. NW Marketing Services Pvt. Ltd.
31.	01-40795	M/s. Gudi Infrastructures Pvt. Ltd.
32.	01-41935	M/s. Charminar Cable Vision Pvt. Ltd.
33.	01-41725	M/s. Pyxis Management Consultants Pvt. Ltd.
34.	01-41634	M/s. Grafex Softech Asia Pvt. Ltd.
35.	01-38407	M/s. Navasys Solutions Pvt. Ltd.
36.	01-39928	M/s. Mahita Educational Institutions Pvt. Ltd.
37.	01-39706	M/s. Sai Sudha Hari Computers and Communications Services Pvt. Ltd.
38.	01-39797	M/s. Shivnag Photography Pvt. Ltd.
39.	01-39624	M/s. Comfort (Hyderabad) Pvt. Ltd.
40.	01-38422	M/s. SMT Network Marketing Pvt. Ltd.
41.	01-38480	M/s. Ceeyes Net Infra Pvt. Ltd.
42.	01-38441	M/s. Viswapriya Projects Pvt. Ltd.
43.	01-38424	M/s. Bhavanasi Imports and Exports Pvt. Ltd.
44.	01-41211	M/s. Surgicals Pvt. Ltd.
45.	01-41296	M/s. Agarwal Infotech Pvt. Ltd.
46.	01-41439	M/s. VIS Projects Pvt. Ltd.
47.	01-39041	M/s. Blue Touch Software Ltd.
48.	01-31831	M/s. Rukmini Kalyan Hospitals Pvt. Ltd.
49.	01-31607	M/s. Neopet Biopharma Pvt. Ltd.
50.	01-31319	M/s. Russel IPM Ltd.
51.	01-31877	M/s. Mahavadi Metals Pvt. Ltd.
52.	01-31496	M/s. KCR Power Pvt. Ltd.
53.	01-32474	M/s. Azad Computers Pvt. Ltd.
54.	01-32413	M/s. Coastal Andra Ex-Servicemen Security Fire and Technical Services Company Pvt. Ltd.

1	2	3
55.	01-32414	M/s. Tandem Metals Pvt. Ltd.
56.	01-31381	M/s. Jaya Residency Pvt. Ltd.
57.	01-39275	M/s. Silicon Agency Pvt. Ltd.
58.	01-37050	M/s. Manjunatha Power Gen. Pvt. Ltd.
59.	01-38013	M/s. TA. DA. Estates Pvt. Ltd.
60.	01-38062	M/s. M. R. Aqua Biotech Pvt. Ltd.
61.	01-38095	M/s. Arsha Turbo Services Pvt. Ltd.
62.	01-38097	M/s. Lotus Aqua Systems Pvt. Ltd.
63.	01-38102	M/s. Blue Flower Data Consultancy Pvt. Ltd.
64.	01-38357	M/s. SKS Infotech Pvt. Ltd.
65.	01-38356	M/s. VSNR Chitfund Pvt. Ltd.
66.	01-38324	M/s. Kovida Health & Hygiene Foods Pvt. Ltd.
67.	01-38028	M/s. Mysorenandi Tarpaulins Pvt. Ltd.
68.	01-31233	M/s. Sri Lorven Polymers Pvt. Ltd.
69.	01-31224	M/s. Nelcon Engineers and Contractors Pvt. Ltd.
70.	01-31575	M/s. Prerana Infotech Pvt. Ltd.
71.	01-31341	M/s. Gomathi Minerals and Granites Pvt. Ltd.
72.	01-31752	M/s. Ratnam Pile Foundations Pvt. Ltd.
73.	01-31349	M/s. Master Interface Services Pvt. Ltd.
74.	01-35634	M/s. Inhouse Soft Pvt. Ltd.
75.	01-35657	M/s. IQ Informatics Pvt. Ltd.
76.	01-35525	M/s. Rishi Technologies Pvt. Ltd.
77.	01-35653	M/s. Jupiter IT Consultants Pvt. Ltd.
78.	01-35377	M/s. Krishnaveni Power Projects Pvt. Ltd.
79.	01-36113	M/s. Golem Technologies Pvt. Ltd.
80.	01-36104	M/s. Kasat Agritek Pvt. Ltd.
81.	01-15357	M/s. Avalanche Exim Pvt. Ltd.
82.	01-16714	M/s. Shrimukh Engineering Pvt. Ltd.
83.	01-16534	M/s. Smiti Foods Pvt. Ltd.
84.	01-17573	M/s. Tejaswi Credit Capital Pvt. Ltd.
85.	01-17163	M/s. Mega Aqua Ltd.
86.	01-35684	M/s. Bhavani Web-Offset Printers Pvt. Ltd.
87.	01-35518	M/s. Anasuya Builders Pvt. Ltd.

1	2	3
88.	01-36100	M/s. Ratnanidhi Homes Pvt. Ltd.
89.	01-36144	M/s. Tenfold Technologies Pvt. Ltd.
90.	01-35908	M/s. Sasya Shyamala Bio-Tech Ltd.
91.	01-35663	M/s. Gayathri Devi General Finance Pvt. Ltd.
92.	01-36415	M/s. Sri Ramachandra Paper Mills Ltd.
93.	01-36399	M/s. Sri Lalitha Sai Reinforced Plastics Pvt. Ltd.
94.	01-36163	M/s. Park Geo Minerals Pvt. Ltd.
95.	01-35593	M/s. Softcom Solutions Ltd.
96.	01-23778	M/s. Icon Orchards & Agri Exports (India) Ltd.
97.	01-23432	M/s. Deccan Financial Services India Ltd.
98.	01-3601	M/s. Navodaya Steel and Allied Products Pvt. Ltd.
99.	01-7997	M/s. Bhupathi Cements and Minerals Pvt. Ltd.
100.	01-38565	M/s. 2 Deck Technologies Pvt. Ltd.
101.	01-38354	M/s. CSB Chemicals Pvt. Ltd.
102.	01-20893	M/s. Sri Subha Chandan Plantations Pvt. Ltd.
103.	01-25350	M/s. S. R. V. Systems Pvt. Ltd.
104.	01-20081	M/s. Ashoka Diamond Ltd.
105.	01-30336	M/s. Velagapudi Transports Pvt. Ltd.
106.	01-30490	M/s. Velagapudi Marketing Services Pvt. Ltd.
107.	01-34569	M/s. Sage & Escallon Aerosol Pvt. Ltd.
108.	01-31678	M/s. Raw Exim Pvt. Ltd.
109.	01-35619	M/s. Sakhyata Estates Pvt. Ltd.
110.	01-35613	M/s. H. K. Software Technologies Pvt. Ltd.
111.	01-35315	M/s. Technosmart Net Ltd.
112.	01-38527	M/s. Piotans Technologies Services Pvt. Ltd.
113.	01-39948	M/s. Srikakulam Dairy Pvt. Ltd.
114.	01-46269	M/s. Code Green Networks India Pvt. Ltd.
115.	01-42841	M/s. Polyvisio Technologies Pvt. Ltd.
116.	01-42917	M/s. Deccan Kidney Stone Clinic Pvt. Ltd.



1	2	3
117.	01-3076	M/s. Suvima Advisory Services Pvt. Ltd.
118.	01-16271	M/s. Sri Vasavi Cables and Conductors Pvt. Ltd.
119.	01-10725	M/s. Andra Aluminium Ltd.
120.	01-23584	M/s. Panatula Finance & Leasing Pvt. Ltd.
121.	01-23642	M/s. Sri Supraja Marketing Services Pvt. Ltd.
122.	01-29570	M/s. Vasista Communication Net Work Pvt. Ltd.
123.	01-32182	M/s. Monaka Infotech Pvt. Ltd.
124.	01-36885	M/s. Futech Chemicals Pvt. Ltd.
125.	01-34238	M/s. Aishwarya Biotech Ltd.
126.	01-37870	M/s. Sri Gowthami Vidyalaya Pvt. Ltd.
127.	01-36270	M/s. Veerlapalem Power Projects Pvt. Ltd.
128.	01-32572	M/s. Tri-Shakti Buld Carriers Pvt. Ltd.
129.	01-34340	M/s. Imacsoft Ltd.
130.	01-34547	M/s. Velox Infotek Ltd.
131.	01-34127	M/s. Sussba Softech Ltd. (Alteration)
132.	01-34195	M/s. Simsuns Mega Marketing Pvt. Ltd.
133.	01-34125	M/s. Yashoda Technologies Pvt. Ltd.
134.	01-34178	M/s. Dhanavanthari Health Care Pvt. Ltd.
135.	01-34110	M/s. Space Matters Communications Pvt. Ltd.
136.	01-34180	M/s. Zade Systems (India) Ltd.
137.	01-34267	M/s. Suvidha Techmark Pvt. Ltd.
138.	01-34272	M/s. Cartel Management Services Pvt. Ltd.
139.	01-34370	M/s. Bansal Technologies Pvt. Ltd.
140.	01-34359	M/s. Shiva Online Services Pvt. Ltd.
141.	01-34227	M/s. Rapt Solutions Pvt. Ltd.
142.	01-34146	M/s. Mayurshanmukha Investments & Securities Pvt. Ltd.
143.	01-34226	M/s. Haritha Cold Storage Pvt. Ltd.
144.	01-34487	M/s. Facilities Info Systems Pvt. Ltd.
145.	01-34497	M/s. Biosoft Infotech Pvt. Ltd.
146.	01-43431	M/s. Spiders Victory Multilevel Marketing Pvt. Ltd.

1	2	3
147.	01-41258	M/s. Abco Marketing Pvt. Ltd.
148.	01-44362	M/s. VGK Steels (India) Pvt. Ltd.
149.	01-44359	M/s. Alqaz Trading Pvt. Ltd.
150.	01-44342	M/s. DPU Retailers Pvt. Ltd.
151.	01-43327	M/s. Tavva Technologies Pvt. Ltd.
152.	01-43297	M/s. Gtrex Technologies Pvt. Ltd.
153.	01-43562	M/s. Pyxis Marketing Network Pvt. Ltd.
154.	01-32705	M/s. Skill Power Infotech Pvt. Ltd.
155.	01-32883	M/s. Explosives Consultation and Application (India) Pvt. Ltd.
156.	01-35974	M/s. DMD Engineers Pvt. Ltd.
157.	01-35707	M/s. Balaji Solutions Pvt. Ltd.
158.	01-30450	M/s. Sudha Prime Energies Pvt. Ltd.
159.	01-30420	M/s. Avis Power Fuels Ltd.
160.	01-30402	M/s. Asnuk Suppliers Pvt. Ltd.
161.	01-27054	M/s. Sree Labharjana Finance Pvt. Ltd.
162.	01-27785	M/s. Kotla Constructions Pvt. Ltd.
163.	01-30951	M/s. Netgates Software Ltd.
164.	01-25225	M/s. Meghacity Projects Pvt. Ltd.
165.	01-25419	M/s. Fastrak Veg-Teh Pvt. Ltd.
166.	01-26348	M/s. NVS Horticultural Projects Pvt. Ltd.
167.	01-27878	M/s. Sri Sampath Constructions Pvt. Ltd.
168.	01-27923	M/s. Dollys Funtime Pvt. Ltd.
169.	01-26824	M/s. Deccan Tri-Cities Chits & Investments Pvt. Ltd.
170.	01-26854	M/s. Bhaskara Architectures & Constructions Ltd.
171.	01-27409	M/s. Gangineni Estates Pvt. Ltd.
172.	01-31505	M/s. Victory Unit Mercantile Services Pvt. Ltd.
173.	01-31513	M/s. Pioneer Corporate Services Pvt. Ltd.
174.	01-30789	M/s. Samrat Towers Pvt. Ltd.
175.	01-30485	M/s. Chris Softech Pvt. Ltd.
176.	01-31916	M/s. Suruchi Agro and Mineral Waters Pvt. Ltd.
177.	01-34097	M/s. Uday Software Technologies Pvt. Ltd.

1	2	3
178.	01-34230	M/s. Niche Pharma Pvt. Ltd.
179.	01-34313	M/s. Sri Ganesh Breweries Pvt. Ltd.
180.	01-34392	M/s. Triton Turbo Teeh Pvt. Ltd.
181.	01-31141	M/s. Vamsi Projects Pvt. Ltd.
182.	01-30421	M/s. Pralas Jpetrotives Pvt. Ltd.
183.	01-30589	M/s. Ram Tech Resing Pvt. Ltd.
184.	01-30586	M/s. Vaddadi Enterprises Pvt. Ltd.
185.	01-34533	M/s. Shivchand Rai Mohanlal Jewellers Pvt. Ltd.
186.	01-34668	M/s. Little Gestures Ltd.
187.	01-34047	M/s. Addagada Chitfunds Pvt. Ltd.
188.	01-34046	M/s. Sree Padma Multitech Pvt. Ltd.
189.	01-34317	M/s. Sivika Infotech Ltd.
190.	01-34429	M/s. Continual Communications Pvt. Ltd.
191.	01-34711	M/s. Pratyamnaya Education Services Pvt. Ltd.
192.	01-34513	M/s. Sravanthi Exports Pvt. Ltd.
193.	01-34508	M/s. Balammal Shipping Company Pvt. Ltd.
194.	01-34552	M/s. Rayair Systems (India) Pvt. Ltd.
195.	01-34549	M/s. E 3S Technologies Ltd.
196.	01-34516	M/s. Decon Process Vessels Pvt. Ltd.
197.	01-34629	M/s. Raghunath Films & Software Ltd.
198.	01-34628	M/s. Raghunath Resorts & Hospitality Ltd.
199.	01-30581	M/s. Gadi Reddi Constructions Pvt. Ltd.
200.	01-34056	M/s. Simtech Offshore Projects Pvt. Ltd.
201.	01-30379	M/s. Vijay Bhanu Engineering Construction Company Pvt. Ltd.
202.	01-34764	M/s. I-Magic Computer Systems Pvt. Ltd.
203.	01-34807	M/s. L. N. Soft.Com Consultancy Services Pvt. Ltd.
204.	01-44895	M/s. Rasun Solutions and Services Pvt. Ltd.
205.	01-39946	M/s. Enetfinity Software Technologies Pvt. Ltd.
206.	01-34133	M/s. Chand and Chand Glass Pvt. Ltd.
207.	01-33829	M/s. Tungapadu Power Pvt. Ltd.
208.	01-32506	M/s. Duthi Flexi Pack Pvt. Ltd.
209.	01-34011	M/s. Tejdeep Technologies Pvt. Ltd.

1	2	3
210.	01-32519	M/s. Shwasa Pulmonary & Critical Care Services Pvt. Ltd.
211.	01-40662	M/s. T. S. Homes Pvt. Ltd.
212.	01-40530	M/s. Touch Wood Tobaccos Pvt. Ltd.
213.	01-33577	M/s. Grand Horizon Exports Pvt. Ltd.
214.	01-33706	M/s. Kalpataruvu Dairy Foods Pvt. Ltd.
215.	01-33049	M/s. Omsai Ram Township Promoters Pvt. Ltd.
216.	01-34997	M/s. Zenflo Marketing Services Pvt. Ltd.
217.	01-34845	M/s. Himagiri Marketing Pvt. Ltd.
218.	01-34835	M/s. Covenant Systems Pvt. Ltd.
219.	01-34917	M/s. Quantum Madical Services Pvt. Ltd.
220.	01-34912	M/s. Pioneer E-Com Solutions Pvt. Ltd.
221.	01-34737	M/s. Ukkalam Consultancy Services Pvt. Ltd.
222.	01-34729	M/s. Medisoul. Com Pvt. Ltd.
223.	01-34717	M/s. Sun Softech Pvt. Ltd.
224.	01-33166	M/s. RRS Enterprises Ltd.
225.	01-33168	M/s. R. R. Insulators Pvt. Ltd.
226.	01-33789	M/s. Muktyala-T. M. S. Power Pvt. Ltd.
227.	01-33856	M/s. Allam Raju Holdings Pvt. Ltd.
228.	01-33670	M/s. Cartel Exim Pvt. Ltd.
229.	01-33316	M/s. Nalgonda Cold Storage Pvt. Ltd.
230.	01-33630	M/s. S. L. R. Power Projects Pvt. Ltd.
231.	01-22356	M/s. Sai Srinivasa Real Estates Pvt. Ltd.
232.	01-21801	M/s. Maruthy Wind Energy Development Pvt. Ltd.
233.	01-43406	M/s. Jahi Networks India Pvt. Ltd.
234.	01-22785	M/s. Venhars Dairy Products Pvt. Ltd.
235.	01-23577	M/s. Sri Raja Rajeshwara Constructions Pvt. Ltd.
236.	01-24186	M/s. Raghuram Constructions Pvt. Ltd.

1	2	3
237.	01-22169	M/s. Midas Wollens Ltd.
238.	01-21610	M/s. Abhinav Enterprises Pvt. Ltd.
239.	01-21970	M/s. Merla Finserv Pvt. Ltd.
240.	01-23470	M/s. Navajeevan Polymers Pvt. Ltd.
241.	01-22584	M/s. Vamsi Exports & Imports Pvt. Ltd.
242.	01-22649	M/s. Lorven Exports Pvt. Ltd.
243.	01-21392	M/s. Global Equity Fund Ltd.
244.	01-36846	M/s. Krishna Teja Power Pvt. Ltd.
245.	01-36882	M/s. Bhavani Publications Pvt. Ltd.
246.	01-36767	M/s. Diamond Bio-Tech Pvt. Ltd.
247.	01-36299	M/s. I Cap Polimers Pvt. Ltd.
248.	01-36803	M/s. Alluri Agritech Pvt. Ltd.
249.	01-36784	M/s. Sri Keerthan Advanced Technologies Pvt. Ltd.
250.	01-36805	M/s. Pavash Software Solutions Pvt. Ltd.
251.	01-36810	M/s. A. P. Helpline Pvt. Ltd.
252.	01-36780	M/s. Alluguvelli Hydro Power Pvt. Ltd.
253.	01-36527	M/s. Vasant Organics Pvt. Ltd.
254.	01-36269	M/s. Alwalpadu Power Pvt. Ltd.
255.	01-36288	M/s. Virinchi Renewable Energy Pvt. Ltd.
256.	01-36267	M/s. Martur Power Projects Pvt. Ltd.
257.	01-36268	M/s. Ragadapa Power Projects Pvt. Ltd.
258.	01-36244	M/s. Sibar Security Services Pvt. Ltd.
259.	01-36245	M/s. Win Biz Systems Pvt. Ltd.
260.	01-36242	M/s. M. S. C. Techno Soft Ltd.
261.	01-36230	M/s. Nisar Hardware & Information Technology Pvt. Ltd.
262.	01-36209	M/s. Sri Vijayadurga Power Projects Pvt. Ltd.
263.	01-36425	M/s. Meenakshi Security Services Pvt. Ltd.
264.	01-35003	M/s. Viswa Sai Softech Pvt. Ltd.
265.	01-35005	M/s. Envirocircle Consulting Pvt. Ltd.
266.	01-35662	M/s. Kasinayana Constructions Pvt. Ltd.
267.	01-35133	M/s. E. V. K. Trade House Pvt. Ltd.

Any person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned Companies

may lodge his/their objections in writing with in 30 days from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned. Failing which the names of the above Companies will be struck off as aforesaid without any further notice.

P. ATCHUTA RAMAIAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Shillong-793001, the 20th January 2006

No. TA/ROC/SES-03&FT/560(5)/4272.—Notice is hereby given pursuant Sub Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 12 Companies have this day been struck off from the Register of Companies and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	Registration No.	Name of the Company	Registered in the State of
1.	02-04123	M/s. Assam Ex-Servicemen Services Pvt. Ltd.	Assam
2.	02-02565	M/s. Gill Brothers Pvt. Ltd.	Assam
3.	02-04752	M/s. F M S Housing Finance Ltd.	Assam
4.	02-05388	M/s. Biswajit Tea Company Pvt. Ltd.	Assam
5.	13-05330	M/s. Indus Cements Ltd.	Meghalaya
6.	02-02773	M/s. Dalmia Aromatics Ltd.	Assam
7.	02-05872	M/s. Bose Infosys Education Pvt. Ltd.	Assam
8.	14-03386	M/s. Liphayan Timber Products Pvt. Ltd.	Nagaland
9.	14-01793	M/s. Konyak Timber Industries Pvt. Ltd.	Nagaland
10.	02-03712	M/s. New Screen Print Pvt. Ltd.	Assam
11.	02-03172	M/s. North Eastern Builders & Suppliers Co. Pvt. Ltd.	Assam
12.	02-06359	M/s. Pansai Agro Farms Pvt. Ltd.	Assam

K. ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kochi, the 25th January 2006

No. 560(5)/SES-2005/471/2005.—Notice is hereby given pursuant Sub Section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Comy. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	475	M/s. Indian Chit Fund Pvt. Ltd.
2.	795	M/s. The National Pharmaceuticals & Medical Services Pvt. Ltd.
3.	2140	M/s. Jaya Bharath Printers & Publishers Pvt. Ltd.
4.	2248	M/s. Horizon Publishers Pvt. Ltd.
5.	2272	M/s. Deepthi Engineers & Contractors Ltd.
6.	2342	M/s. Anthraper Sea Foods Exports Pvt. Ltd.
7.	2666	M/s. Vettrus Complex Pvt. Ltd.
8.	2680	M/s. Venand Graham Enterprises Pvt. Ltd.
9.	3077	M/s. South India Restaurants Pvt. Ltd.
10.	3152	M/s. Mohammed Ali Salim (Overseas) Pvt. Ltd.
11.	3300	M/s. Tropical Timbers Pvt. Ltd.
12.	3415	M/s. Diatek Pvt. Ltd.
13.	3481	M/s. Trinity Kuries & Finance Pvt. Ltd.
14.	3594	M/s. Glazed Tiles (Kerala) Ltd.
15.	3650	M/s. Kerala Resorts Pvt. Ltd.
16.	3663	M/s. Navabharath Consumers' Services Pvt. Ltd.
17.	3764	M/s. Jaya Metallic Products Pvt. Ltd.
18.	3812	M/s. Parur Agricultural Produce Company Pvt. Ltd.
19.	3989	M/s. Indo Malabar Foods Pvt. Ltd.
20.	4219	M/s. Chennakadan Investments Ltd.
21.	4295	M/s. Akshaya Wires & Pipes Pvt. Ltd.
22.	4382	M/s. Soney Trans Continental Pvt. Ltd.
23.	4530	M/s. Indo Malabar Textiles Pvt. Ltd.
24.	4532	M/s. Stonefield Business Services Pvt. Ltd.
25.	4557	M/s. Yadava Hire Purchase Pvt. Ltd.
26.	4628	M/s. Ashwin Sales Pvt. Ltd.
27.	4651	M/s. Seawalth (India) Exports Pvt. Ltd.
28.	4661	M/s. Falcon Hire Purchase & Leasing Ltd.

1	2	3
29.	4686	M/s. Sankunni Nair Memorial Hospitals Pvt. Ltd.
30.	4820	M/s. Jos Brothers Pvt. Ltd.
31.	4894	M/s. Sudha Herbal Products Pvt. Ltd.
32.	5070	M/s. Baas Builders Engineers and Contractors Pvt. Ltd.
33.	5076	M/s. Elite Confectioners Pvt. Ltd.
34.	5186	M/s. Govind Chemicals Pvt. Ltd.
35.	5313	M/s. Infra Fishing Company Ltd.
36.	5467	M/s. Sreenivas Estates Pvt. Ltd.
37.	5475	M/s. Merit Effective Learning Systems Pvt. Ltd.
38.	5582	M/s. C. S. Hospital Pvt. Ltd.
39.	5594	M/s. Manimala Chies & Kuries Pvt. Ltd.
40.	5638	M/s. Sanamed Exports Pvt. Ltd.
41.	5642	M/s. Indus Malabar Hi-Tech Rubbers Pvt. Ltd.
42.	5984	M/s. Cochin Beeyems Builders Pvt. Ltd.
43.	6007	M/s. Unison Rubbers Pvt. Ltd.
44.	6032	M/s. Vayola Mercantile Pvt. Ltd.
45.	6033	M/s. Viola Plantations Pvt. Ltd.
46.	6052	M/s. Industrial Protection Force And Crime Investigation Agency (India) Ltd.
47.	6116	M/s. Blue Bay Shipping Pvt. Ltd.
48.	6135	M/s. Southern Propellers Pvt. Ltd.
49.	6236	M/s. Magnum Hospitals Ltd.
50.	6247	M/s. Afjushi Exports Pvt. Ltd.
51.	6284	M/s. Cochin Computer Accessories Pvt. Ltd.
52.	6318	M/s. Rams Info-Marketing Pvt. Ltd.
53.	6339	M/s. Jshri Tiles Pvt. Ltd.
54.	6516	M/s. South West Travels And Trade Links Pvt. Ltd.
55.	6588	M/s. C.V.M. Gears Pvt. Ltd.
56.	6601	M/s. Shan Polymers Pvt. Ltd.
57.	6735	M/s. Sassbros Engineers Pvt. Ltd.
58.	6737	M/s. New World Exports Pvt. Ltd.
59.	6869	M/s. Jupiter Granites Pvt. Ltd.
60.	6872	M/s. Kayen Granites Pvt. Ltd.
61.	6947	M/s. Riyan Fabrics Pvt. Ltd.

1	2	3
62.	6970	M/s. Value Invest Pvt. Ltd.
63.	6977	M/s. Adiyath Community Hall Pvt. Ltd.
64.	6979	M/s. Multitech Fire Protection Systems Pvt. Ltd.
65.	7017	M/s. Cee-Jay Steel And Alloy Industries Ltd.
66.	7134	M/s. Kerapuzhpam Oils And Fats Pvt. Ltd.
67.	7171	M/s. Thevermadom Plastics Pvt. Ltd.
68.	7177	M/s. Kasca Kits And Semi Conductors Pvt. Ltd.
69.	7231	M/s. Garhika Builders And Developers Pvt. Ltd.
70.	7265	M/s. India Sea Foods Pvt. Ltd.
71.	7329	M/s. Wynad Hospitals Pvt. Ltd.
72.	7473	M/s. Ken Exports Pvt. Ltd.
73.	7499	M/s. Nava Bharat Ayurvedic Concentrates Pvt. Ltd.
74.	7564	M/s. Mithravindha Kuries & Loans Pvt. Ltd.
75.	7573	M/s. Craze Trading Pvt. Ltd.
76.	7590	M/s. Estate Fresh Spices Pvt. Ltd.
77.	7610	M/s. Thankathop Plantation Pvt. Ltd.
78.	7611	M/s. Krishko Computer Pvt. Ltd.
79.	7721	M/s. Sramp Consultants Pvt. Ltd.
80.	7766	M/s. Lansea Resorts Pvt. Ltd.
81.	7791	M/s. Kerala Organic Fertilizers Pvt. Ltd.
82.	7863	M/s. Abba Granites Pvt. Ltd.
83.	7892	M/s. Star Of Malabar Travels Pvt. Ltd.
84.	7905	M/s. Vanchinad Marine Products Pvt. Ltd.
85.	8007	M/s. Montage Films Pvt. Ltd.
86.	8133	M/s. Green Growers (India) Pvt. Ltd.
87.	8135	M/s. Marema Finances Pvt. Ltd.
88.	8136	M/s. B R C Farms Techs Pvt. Ltd.
89.	8170	M/s. Carona Travel And Trade Links Ltd.
90.	8186	M/s. Kasca marketing Services Pvt. Ltd.
91.	8211	M/s. Atlantic Plantations Pvt. Ltd.
92.	8260	M/s. Mjm Trading And Construction Pvt. Ltd.
93.	8434	M/s. Vindya Marine Products Exports Pvt. Ltd.

1	2	3
94.	8468	M/s. Greeshmam Agro Farms Pvt. Ltd.
95.	8527	M/s. All M Tybes Pvt. Ltd.
96.	8532	M/s. K.P.V. Exports Pvt. Ltd.
97.	8572	M/s. Nirma Cements Pvt. Ltd.
98.	8596	M/s. Pookode Kuries And Loans Pvt. Ltd.
99.	8710	M/s. Mysore Solvent Extractions Pvt. Ltd.
100.	8725	M/s. Nagavalley Real Estates Pvt. Ltd.
101.	8823	M/s. Corona Advertising And Creative Services Pvt. Ltd.
102.	8855	M/s. Thusaragiri Real Estates And Property Developers Pvt. Ltd.
103.	8856	M/s. Thusharagiri Resorts Pvt. Ltd.
104.	8977	M/s. Sarada Builders Pvt. Ltd.
105.	9028	M/s. Walkers Fisheries Pvt. Ltd.
106.	9073	M/s. Safe-Bet Farms And Plantations Pvt. Ltd.
107.	9345	M/s. Mainakam Kuries Pvt. Ltd.
108.	9351	M/s. Thottathil Constructions Pvt. Ltd.
109.	9714	M/s. The Crown Chits And Loans Pvt. Ltd.
110.	9727	M/s. Globtech Systems Pvt. Ltd.
111.	9760	M/s. Credible Properties Pvt. Ltd.
112.	9779	M/s. Smruthi Advertising Pvt. Ltd.
113.	9876	M/s. Zam-Zam Minerals Pvt. Ltd.
114.	9918	M/s. Remanika Family Shop Pvt. Ltd.
115.	9987	M/s. Canamind Trading Services Pvt. Ltd.
116.	10002	M/s. Quality Timber And Plywoods Pvt. Ltd.
117.	10052	M/s. Bee Trans Pvt. Ltd.
118.	10063	M/s. Malankara Petro Industries Ltd.
119.	10083	M/s. Enright House Pvt. Ltd.
120.	10121	M/s. We Eight Exports Pvt. Ltd.
121.	10140	M/s. Manalippuzha Agro Estate Pvt. Ltd.
122.	10163	M/s. Mount Guidance Pvt. Ltd.
123.	10292	M/s. Rajas Marine Pvt. Ltd.
124.	10350	M/s. Pashnath Packagings Pvt. Ltd.
125.	10355	M/s. Sij Electronic Comptech Pvt. Ltd.
126.	10360	M/s. Future Labs Pvt. Ltd.
127.	10390	M/s. Muthedath Finance Pvt. Ltd.
128.	10434	M/s. Prasanthu Builders Pvt. Ltd.

1	2	3
129.	10538	M/s. Mampilly Holdings Pvt. Ltd.
130.	10630	M/s. Linkage Services Pvt. Ltd.
131.	10642	M/s. Unikraft Projects Pvt. Ltd.
132.	10896	M/s. Shade Green Developers Pvt. Ltd.
133.	11105	M/s. Royal Roadways Pvt. Ltd.
134.	11108	M/s. Sincere Dhanam management And Chits Pvt. Ltd.
135.	11150	M/s. Ex-Service Universal Finance Ltd.
136.	11163	M/s. Sai Integrated Kuries And Finance Pvt. Ltd.
137.	11184	M/s. A-One Fabricators Pvt. Ltd.
138.	11211	M/s. Trt Automobiles Pvt. Ltd.
139.	11251	M/s. Dasco Properties Pvt. Ltd.
140.	11274	M/s. Royal Servicing Company Pvt. Ltd.
141.	11313	M/s. Power Links Associates And Contractors Pvt. Ltd.
142.	11322	M/s. Channel Business And Cargo Pvt. Ltd.
143.	11368	M/s. Goldpark Estates Pvt. Ltd.
144.	11441	M/s. Senora Kitchens Pvt. Ltd.
145.	11525	M/s. Lexus Buttons Pvt. Ltd.
146.	11529	M/s. Spex (India) Manufacturing Pvt. Ltd.
147.	11537	M/s. Laser Express Courier And Cargo Movers Pvt. Ltd.
148.	11544	M/s. Surag Estates Pvt. Ltd.
149.	11562	M/s. Punalur Crumb Rubber Pvt. Ltd.
150.	11563	M/s. K.S. Ayurvedic Health Care (India) Pvt. Ltd.
151.	11631	M/s. Jeelani Tours And Travels Pvt. Ltd.
152.	11694	M/s. Padayatti Hospitality Pvt. Ltd.
153.	11703	M/s. Rhythm Media Consortium Pvt. Ltd.
154.	11713	M/s. Goodark Lumens Pvt. Ltd.
155.	11736	M/s. Happy Vision Pvt. Ltd.
156.	11784	M/s. Micro Seal Pvt. Ltd.
157.	11799	M/s. Pooja Tourism Pvt. Ltd.
158.	11800	M/s. Pooja Agro Products India Pvt. Ltd.
159.	11803	M/s. Sandhar Impex Pvt. Ltd.
160.	11824	M/s. Picnic Tours And Travels Pvt. Ltd.
161.	11828	M/s. Malabar Power Equipments Pvt. Ltd.
162.	11844	M/s. Prabal Granites And Marbles Enterprises Pvt. Ltd.

1	2	3
163.	11866	M/s. Thiruonam Exports Pvt. Ltd.
164.	11874	M/s. Lassya Hotels Pvt. Ltd.
165.	11904	M/s. Broop Detectives Pvt. Ltd.
166.	11915	M/s. Ambrha Electronics Pvt. Ltd.
167.	11917	M/s. Fair-Tech Medical Devices Pvt. Ltd.
168.	11932	M/s. M.F. Impex Pvt. Ltd.
169.	11945	M/s. Intrust Services Pvt. Ltd.
170.	11986	M/s. Sun Trading Pvt. Ltd.
171.	12014	M/s. Promec Projects And Technologies Pvt. Ltd.
172.	12214	M/s. Janakiya Transport Company Ltd.
173.	12265	M/s. Anjaly Ayurvedic Products Pvt. Ltd.
174.	12297	M/s. Aakaram Architects And Engineers Pvt. Ltd.
175.	12427	M/s. Uniguard Healthcare Services Pvt. Ltd.
176.	12431	M/s. Kensoft Consultancy Services Pvt. Ltd.
177.	12453	M/s. Buraq Motors Pvt. Ltd.
178.	12469	M/s. Mar Gregorious Lottery Services Pvt. Ltd.
179.	12509	M/s. Aakrithi Packaging Pvt. Ltd.
180.	12631	M/s. Step-In Kuries Pvt. Ltd.
181.	12683	M/s. Riviera Distilleries Pvt. Ltd.
182.	12718	M/s. Gee Kay Market Network And Services Pvt. Ltd.
183.	12743	M/s. Sowbadram Software Development And Exports Pvt. Ltd.
184.	12750	M/s. Yoro-Tech Softwares Pvt. Ltd.
185.	12763	M/s. Direct Corporate Data Services Pvt. Ltd.
186.	12765	M/s. Jeevan Paper Mills Pvt. Ltd.
187.	12771	M/s. Growmor Agencies Pvt. Ltd.
188.	12784	M/s. Suvarna Confectionery Pvt. Ltd.
189.	12786	M/s. Aldous Glare Trade And Exports Pvt. Ltd.
190.	12795	M/s. Fancy Housing And Real Estates Pvt. Ltd.
191.	12802	M/s. Kakkassery Automobile Repairs And Services Pvt. Ltd.
192.	12853	M/s. Mayura Shipping And Cargo Services Pvt. Ltd.

1	2	3
193.	12861	M/s. Sampan Marine Technology Pvt. Ltd.
194.	12877	M/s. Altsoft Infotech Pvt. Ltd.
195.	12897	M/s. Srishti Garments And Trade Pvt. Ltd.
196.	12907	M/s. Metro Lifts Pvt. Ltd.
197.	12908	M/s. Energitech Communications And Systems Pvt. Ltd.
198.	12926	M/s. Thomson Institute of Information Technology Pvt. Ltd.
199.	12981	M/s. Zambezi Kunnel Super Bazar Pvt. Ltd.
200.	13014	M/s. Cyber Creations Private Limited

S.M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kochi, the 27th January 2006

No. 560(5)/SES-2005/527/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	Comy. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	13020	M/s. Odessey Overseas Services and Trading Pvt. Ltd.
2.	13034	M/s. M.Dos Info Systems Pvt. Ltd.
3.	13037	M/s. Malabar Agro Products Pvt. Ltd.
4.	13052	M/s. Sivasakthi Kuries Pvt. Ltd.
5.	13065	M/s. Gateway Infotech (Indian) Pvt. Ltd.
6.	13079	M/s. Ex-Servicemen Expert Service Pvt. Ltd.
7.	13086	M/s. AITC Software Development Pvt. Ltd.
8.	13089	M/s. Royal Dinners Den Private
9.	13094	M/s. Kairali Foods Pvt. Ltd.
10.	13107	M/s. Miko-Miko Exotic Holidays Pvt. Ltd.
11.	13113	M/s. Mithri Publishing Company Pvt. Ltd.
12.	13115	M/s. Skywings Exports Pvt. Ltd.
13.	13122	M/s. Ernad Infotech Pvt. Ltd.
14.	13123	M/s. Grand Slam Infotech Pvt. Ltd.

1	2	3
15.	13129	M/s. Mobiliare Exports Pvt. Ltd.
16.	13139	M/s. Payyapilly Sunil's Dress Gallery Pvt. Ltd.
17.	13148	M/s. Cool Breeze Enterprises Pvt. Ltd.
18.	13162	M/s. Navodaya Publications Pvt. Ltd.
19.	13164	M/s. Glucklich Marketing Pvt. Ltd.
20.	13168	M/s. Sakthi Marines And Foods (India) Pvt. Ltd.
21.	13170	M/s. Rajasree Technologies Pvt. Ltd.
22.	13175	M/s. Spicemark Mercantile Pvt. Ltd.
23.	13176	M/s. E.K. Exports Pvt. Ltd.
24.	13186	M/s. Diners Dale Resorts and Motels (India) Pvt. Ltd.
25.	13195	M/s. South India Cards Pvt. Ltd.
26.	13232	M/s. Mel Chemicals Pvt. Ltd.
27.	13252	M/s. Taistomans Foods and Beverages Pvt. Ltd.
28.	13278	M/s. Colonial Creations Pvt. Ltd.
29.	13398	M/s. Highgate Heritage and Resorts Pvt. Ltd.
30.	13418	M/s. Bharatiya Environmental Inspection and Protection Services Private Limited
31.	13453	M/s. Chandy's Premium Curry Sauces and Spreads Pvt. Ltd.
32.	13476	M/s. Signature Share Brokers Pvt. Ltd.
33.	13488	M/s. Abhi Management Consultants Pvt. Ltd.
34.	13511	M/s. Garjanam Printing and Publishing Company Pvt. Ltd.
35.	13583	M/s. Peoples Photo Pvt. Ltd.
36.	13617	M/s. IJK Intek Pvt. Ltd.
37.	13682	M/s. Hirange Super Shoppe Ltd.
38.	13694	M/s. Four Star Hotel and Resorts Pvt. Ltd.
39.	13719	M/s. Quadra Softcom Solutions Pvt. Ltd.
40.	13726	M/s. Hi-Power Informatics Pvt. Ltd.
41.	13807	M/s. Jeevan Home and Properties Developers Pvt. Ltd.
42.	13842	M/s. Hojo's Kitchen Pvt. Ltd.
43.	13850	M/s. Allegro Computers and Peripherals Pvt. Ltd.
44.	13881	M/s. Pentagon Worldlinks Pvt. Ltd.
45.	13888	M/s. Damprg Media Pvt. Ltd.

1	2	3
46.	13907	M/s. Prajyothi Ayurveda Super Speciality Hospital Pvt. Ltd.
47.	13922	M/s. Malabar Earth Movers Pvt. Ltd.
48.	13925	M/s. Entercom Technologies Pvt. Ltd.
49.	13936	M/s. Thodupuzha Super Speciality Hospitals Pvt. Ltd.
50.	13941	M/s. Al Jadeed Bakery Pvt. Ltd.
51.	13959	M/s. Tropical Info Solutions Pvt. Ltd.
52.	13979	M/s. K. K. Medical Instrumentation Pvt. Ltd.
53.	14005	M/s. Nambalikkaran's Trading and Services Pvt. Ltd.
54.	14019	M/s. V5 Communications Pvt. Ltd.
55.	14020	M/s. Bestek Management Consultants Pvt. Ltd.
56.	14022	M/s. Siddha Vaidya Center for Hypertension and Diabetes Pvt. Ltd.
57.	14054	M/s Malayil Tourism Ltd.
58.	14080	M/s. Drisya T.V. Pvt. Ltd.
59.	14088	M/s. Bosco Aluminium and Glass Company (India) Pvt. Ltd.
60.	14092	M/s. Dhishana Securities and Investments Pvt. Ltd.
61.	14094	M/s. Matin Capital Services Pvt. Ltd.
62.	14107	M/s. Checkwood. Com Pvt. Ltd.
63.	14109	M/s. JVT Properties Punalur Pvt. Ltd.
64.	14118	M/s. Partake Securities Pvt. Ltd.
65.	14148	M/s. Learneasy Softwares Pvt. Ltd.
66.	14151	M/s. Sree Trades Pvt. Ltd.
67.	14158	M/s. Gromax Insurance Services Pvt. Ltd.
68.	14176	M/s. Hexagon Systems and Software Solutions Pvt. Ltd.
69.	14193	M/s. Carishma Communication Pvt. Ltd.
70.	14241	M/s. Palakkad Manpower and Consultancy Services Pvt. Ltd.
71.	14257	M/s. Samiac Trading Company Pvt. Ltd.
72.	14259	M/s. Multifx Media Pvt. Ltd.
73.	14312	M/s. Atec Animal Care Ltd.
74.	14318	M/s. Kosodh Exports Pvt. Ltd.
75.	14323	M/s. UCC Courier Net Work Pvt. Ltd.
76.	14339	M/s. Pulse IT Solutions Pvt. Ltd.

1	2	3
77.	14343	M/s. Techmarcon Pvt. Ltd.
78.	14350	M/s. Plantrich Chemicals and Fertilisers Ltd.
79.	14374	M/s. Hotel High Rise Pvt. Ltd.
80.	14375	M/s. Emerald Health Care Pvt. Ltd.
81.	14396	M/s. Quadrum Infoservice Pvt. Ltd.
82.	14397	M/s. J and A Data System Pvt. Ltd.
83.	14408	M/s. Sairams Medical Technologies Pvt. Ltd.
84.	14444	M/s. Trichur Goldcrafts Pvt. Ltd.
85.	14476	M/s. Thottathil Stocks and Shares Pvt. Ltd.
86.	14490	M/s. Systems House Pvt. Ltd.
87.	14560	M/s. Neuro Diagnostics and Research Centre Pvt. Ltd.
88.	14608	M/s. Tzongyang Aquatech Pvt. Ltd.
89.	14724	M/s. Sun and Sand Resorts Pvt. Ltd.
90.	14755	M/s. Dream Vendors Tour Company Pvt. Ltd.
91.	14770	M/s. Hotel Sanoj Pvt. Ltd.
92.	14778	M/s. JMRS Marketing Services Pvt. Ltd.
93.	14800	M/s. Rainbow Boots Pvt. Ltd.
94.	14872	M/s. H.S.C. Net Pvt. Ltd.
95.	14877	M/s. Aden Spices Pvt. Ltd.
96.	14881	M/s. Joan Exports Pvt. Ltd.
97.	14892	M/s. Jai Vadakkumnathan Kuries (Kerala) Pvt. Ltd.
98.	14906	M/s. 3 C Infotech Pvt. Ltd.
99.	14933	M/s. Jeweltouch Marketing Pvt. Ltd.
100.	14970	M/s. Big Foot Events and Promotions Pvt. Ltd.
101.	15066	M/s. Opportune Systems Pvt. Ltd.
102.	15067	M/s. Koodapuzha Foundation For Development and Housing Ltd.
103.	15069	M/s. Integral Consultancy and Power Technologies Pvt. Ltd.
104.	15092	M/s. Mec-Hyd Engineers Pvt. Ltd.
105.	15100	M/s. Perinchellur Resorts Pvt. Ltd.
106.	15101	M/s. Thomas Grom Surveyors Pvt. Ltd.
107.	15123	M/s. NST Tours And Trading Company Pvt. Ltd.
108.	15275	M/s. Transcend Financial Services Pvt. Ltd.
109.	15440	M/s. Richfield Solutions Pvt. Ltd.



1	2	3	1	2	3
110.	15476	M/s. Mritunjay Marketing Pvt. Ltd.	129.	16419	M/s. Spiralynx Solutions Pvt. Ltd.
111.	15514	M/s. Pro Act Trades Pvt. Ltd.	130.	16515	M/s. Eco Park Farms And Resorts Pvt. Ltd.
112.	15520	M/s. Amasco Systems And Software Pvt. Ltd.	131.	16601	M/s. Pallavi Healthcare Pvt. Ltd.
113.	15549	M/s. Spice Market Pvt. Ltd.	132.	16638	M/s. Traditional Remedies Pvt. Ltd.
114.	15583	M/s. Excel Training Centre For Airline Services Pvt. Ltd.	133.	16726	M/s. Green Quest Herbals Pvt. Ltd.
115.	15705	M/s. Shutter Bug Photographics Pvt. Ltd.	134.	16785	M/s. Sasi Sankar Tours and Travels Pvt. Ltd.
116.	15724	M/s. Fortek Service Pvt. Ltd.	135.	16850	M/s. Eye Educational and Charitable Foundation Kerala Pvt. Ltd.
117.	15725	M/s. Jinchan Exim Pvt. Ltd.	136.	17074	M/s. Sevenhills Web Services Pvt. Ltd.
118.	15754	M/s. Nexus Media Pvt. Ltd.	137.	17077	M/s. Yathra Arts And Exports Pvt. Ltd.
119.	15779	M/s. Travancore Steels Pvt. Ltd.	138.	17109	M/s. CSS Group Tours Pvt. Ltd.
120.	15872	M/s. Booster Professional Management Pvt. Ltd.	139.	17148	M/s. Trendz Fairs And Marketing Pvt. Ltd.
121.	15889	M/s. Varenva Computers Pvt. Ltd.	140.	17231	M/s. Ann's Paper Products Pvt. Ltd.
122.	15891	M/s. Munnar Lake Hilltops Pvt. Ltd.	141.	17258	M/s. Dynamic Discovery Land and Resort Pvt. Ltd.
123.	15893	M/s. Bluecem Gloves Pvt. Ltd.	142.	17273	M/s. Mondlicht Beach Resort Pvt. Ltd.
124.	15978	M/s. Panjekarans Diagnostic Laboratories Pvt. Ltd.	143.	17642	M/s. Sab Anzera Builders and Developers Pvt. Ltd.
125.	16111	M/s. Sukharamom Resorts Pvt. Ltd.	144.	18063	M/s. Green Backwater Experience Pvt. Ltd.
126.	16265	M/s. Planet Prints Pvt. Ltd.			
127.	16299	M/s. Future Visions Business Consultancy Pvt. Ltd.			
128.	16322	M/s. Life Guard Advertisers Pvt. Ltd.			

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala